

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 210]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 मई 2017—वैशाख 21, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मई 2017

क्र.-बी-8-12-2017-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र. 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 23 फरवरी 2016 एवं 23 फरवरी 2017 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2017 के लिये संलग्न सूची अनुसार जिलों सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर, सागर, छतरपुर, रीवा, शहडोल, खंडवा, मंदसौर, रतलाम, शिवपुरी, सीहोर, अशोकनगर, रायसेन एवं हरदा के समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिए परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
सिवनी										
	करई									
		करई								
			00039	पिण्डरई		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00040	करई		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00041	बिछुआ मा.	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00042	पिपरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00043	सेटेवानी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00045	मोहगांव यादव	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00046	जौरेवाडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00047	संतोषा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00049	कोहका	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00050	पचधार		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00052	खण्डसा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00055	पाटन	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00056	धनौली	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00057	कुडवा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00058	धोबीटोला मा0	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00059	रमपुरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00060	पिंडरई	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00061	पीपरवानी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00062	जटामा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00038	चन्द्रपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		सुकतरा								
			00001	चक्कीखमरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00002	जोगीवाडा		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00003	गवारी		-	-	-	मक्का	-
			00004	बेलपेट		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00005	परासपानी		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00006	विजयपानी		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00007	सरीहिरी		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00008	सागर		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00009	बुडुडी		-	-	-	मक्का	-
			00010	सापापार		-	-	-	मक्का	-
			00011	कोहका		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00012	दुटेरा		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00013	पतरई		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00014	मोहगांव		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00015	बादलपार	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00016	डुगरिया		-	-	-	मक्का	-
			00017	खाखरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00018	सिल्लोर		-	-	-	मक्का	-
			00019	सारसडोल	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00020	आमगांव	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00021	थावरझोडी		-	-	-	मक्का	-
			00022	ऐरमा		-	-	-	मक्का	-
			00023	सुकतरा रै.	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00024	कलबोडी	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00025	गोडेगांव	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00026	मोहगांव		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00027	छीतापार	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00028	परतापुर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-

		00029	लावेसरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00030	बकौडी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00031	तुईयापार	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00032	धोबीसरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	साखादेही	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00034	दरासीखुर्द	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00035	दरासीकलौ	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00036	मूडापार	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00037	झालागादी		धानअसिंचित	-	-	-	-
	केवलारी								
			उगली						
		00047	सोनखार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00048	नेवरगांव	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00050	रूमाल	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00051	सारसडोल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00052	बावली	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00053	मोहवरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00054	उगली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00055	खामी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00056	मलारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00057	चिखली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00058	धूरवाडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00059	खेरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00060	ढुंटेरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00061	सरंडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00062	सरेखाकलौ	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00063	विभारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00064	सकरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00065	पांडीवाडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00066	रतनपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00067	पिपरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00068	बेलगांव	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00069	उगदीवाडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00070	नसीपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00071	दुरंदा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00072	बागडोंगरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00073	पा0 छपारा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00074	जेवनारा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00075	खुरसुरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00076	कनारी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00077	भरवेली		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00078	बनाथर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	केवलारी								
		00016	परासपानी		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00017	डोकररांजी		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00018	बिनेकी		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00019	मलारा		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00020	खरसारू		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00021	खापा		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00022	बन्देली		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00023	अहरवाडा		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00024	केवलारीखेडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00025	टाली		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00026	खुरसीपार मा0		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00027	माल्हनवाडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00028	हौंदा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00029	पोंगार		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00030	रायखेडा		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00031	तिन्दुवा		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-

		00032	गुबरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	पुतरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	सुन्हेरा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00035	गुवारी	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00036	खैरराजी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00037	बिछुवा रे.	धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	सुकतरा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00039	बोधिया	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00040	डोभ	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00041	केवलारी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00042	अलोनीखापा मा0	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00043	झोला	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00044	बगलई	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00045	जामूनपानी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00046	अजूनझिर	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	पलारी							
		00001	डुंगरिया	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00002	खापा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00003	गुवारी	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00004	घसौर	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	चिरचिरा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00006	पिपरिया कलां	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00007	मैरा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00008	खैरा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	लोषा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00010	मूनगापार	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	सरेखा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	पांजरा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	झगरा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00014	पाथरफोडी मा0	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00015	दुटेरा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
	घसौर							
	कहानी							
		00001	कत्ती रे0	धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	नयेगांव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	दलका पाडीवाडा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	साल्हेपानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	दुर्जनपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	पनारझिर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	बरेला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	रूपदौन मा.	धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	सारसडोल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	बिनेकीकलां	धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	बरोदा मा.	धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	सरोरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	मेहता	धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	बटवानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	गोल्हिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	रमपुरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	सुचानमेटा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	अगरिया खुर्द	धानअसिचित	-	-	-	-
	घसौर							
		00036	लुटमरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	इश्वरपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	बालपुर मा.	धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	खैरीकलां	धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	छीतापार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	खमरिया	धानअसिचित	-	-	-	-

		00043	डुंगरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	निधानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	भालीवाडा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	पहाडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	केवलारी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	बंदम	धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	बिनीरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	कुडोपार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	घोटखेडा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	बरगांव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	मानेगांव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	मोहगांव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	गोकलथाना	धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	पौंडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	किन्दरई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	पट्टीकोना	धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	व्याहारी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00061	झुरकी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00062	किंझरई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00063	धनवाही	धानअसिचित	-	-	-	-
		00064	बुधरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00065	पाटन	धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	फुल्हेरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00067	केदारपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	चरगाव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00069	पुटरई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00070	अडिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00071	बम्हनी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	सालीवाडा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00073	भिलाई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00074	पिपरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00075	खामदेही	धानअसिचित	-	-	-	-
		00076	कटिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00077	बक्सी	धानअसिचित	-	-	-	-
	छपारा							
	चमारी							
		00001	धुंधसा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00002	सुकरी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00003	गोरखपुर	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00004	बबईया	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00005	तेदनी	-	-	-	मक्का	-
		00006	लाठगांव	-	-	-	मक्का	-
		00007	झिरी	-	-	-	मक्का	-
		00008	पहाडी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00009	देवरीकला	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00010	केकडा	-	-	-	मक्का	-
		00011	पौंडी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00012	मुंडरई	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00013	देवगांव	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00014	तिन्सा	-	-	-	मक्का	-
		00015	जोगीवाडा	-	-	-	मक्का	-
		00016	ईमली पठार मा.	-	-	-	मक्का	-
		00017	डागावानी	-	-	-	मक्का	-
		00018	चमारी खुर्द	-	-	-	मक्का	-
		00019	ईमलियां रं.	-	-	-	मक्का	-
		00020	नादिया कला	-	-	-	मक्का	-
		00021	खमरियां	-	-	-	मक्का	-
		00022	मडवा	-	-	-	मक्का	-

		00023	माहुलपानी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00024	बीजादेवरी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00025	पीपरदाना	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00026	तुलफ रै.	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00027	लकवाह	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00028	दरबई	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00029	केवलारी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00030	रामगढ	-	-	-	मक्का	-
		00031	बकोडा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00032	सागर	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00033	भटमतरा	-	-	-	मक्का	-
		00034	लुडगी	-	-	-	मक्का	-
		छपारा						
		00035	खैरी	-	-	-	मक्का	-
		00036	पायली खुर्द	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00037	सुआखेडा	-	-	-	मक्का	-
		00038	गोहना	-	-	-	मक्का	-
		00039	सादकसिवनी	-	-	-	मक्का	-
		00040	बिहूआ बर्रा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00041	छपारा कलां	-	-	-	मक्का	-
		00042	डु.छपारा	-	-	-	मक्का	-
		00043	खुरसीपार	-	-	-	मक्का	-
		00044	गोरखपुर	-	-	-	मक्का	-
		00045	प्रतापगढ	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00046	बिहिरियां	-	-	-	मक्का	-
		00047	अंजनियां	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00048	बिलकटा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00049	भीमगढ रै.	-	-	-	मक्का	-
		00051	सुकरी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00052	कोंडिया मा.	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00053	सागर	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00054	पायली	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		धनौरा						
		धनौरा						
		00001	खमरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	हिगवानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	घाटपिपरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	ग्वारी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	सालीवाडा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	पिपरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	सलेमा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	सर्रा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	तुआ धोधरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	मुर्गहाई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	मढदेवरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	बेगरवानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	पिडाबोडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	लाबेसर्रा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	गनेरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	घोघरी मा.	धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	धनौरा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00020	उमरपानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	गुधना	धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	जामुनपानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	झलवानी मा.	धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	धनौरा खुर्द	धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	पिपरिया	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00026	कुड्डों	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00027	बम्होडी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-

		00028	बगहाई		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00029	बारागौर		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00030	रावठान		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00031	सुकवाह		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00032	आमानाला		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00033	अमोली		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00034	सुनवारा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00035	सकरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00036	गोरखपुर		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00037	हरई		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00038	नोनिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00039	बोरिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00040	देवरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00041	हरदली		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00042	बरबसपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00044	दौदावानी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00045	कुडारी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00046	थावरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00047	देवरी टीका		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00018	साजपानी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00019	बरेली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	भुरकुडी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
	बरघाट								
	बरघाट								
		00001	बम्होडी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	पिंडरईखुर्द	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	साल्हैखुर्द (चीच.)		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	केसला	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	सिंगपुर	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	खुरसीपारकलॉ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	बोरीकलॉ	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00008	खूट	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	साल्है	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00010	कोसमी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	खारी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00012	नगझिर	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00013	बुढैनाकलॉ	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00014	गूदमा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	पखारा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	विजयपानी कला	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	चिमनाखारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	मलारा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	गोरखपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	पिंडरईकलॉ	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00021	खामी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	सरेखाकलॉ	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	जावरकाठी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	जेवनारा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00025	छपारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	अतरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	जनमखारी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	धोबीसरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	ताखलाखुर्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	टेटमा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	लालपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	गांगपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	बेहरई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	उमरवाडा		धानअसिचित	-	-	-	-

		00035	मउ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	गोडेगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	घीसी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	केकडई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	धारनाकलाँ	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	पौनारकलाँ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	मण्डी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	काचना		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	मानेगांवकलाँ	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	बम्हनी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	चिरचिरा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	मगरकठा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	टिकारी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	बरघाट		धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	लोहारा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	पौनिया	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	बुढेना खुर्द	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00052	मानेगांवखुर्द	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	भीमपाठा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	कुडोपार	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	आमगांव	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	टिकारी(आमा)	धानसिचित	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00057	आमागढ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	नयेगांव	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	काठी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00060	उसरी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00061	शुक्ला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00062	अरी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00063	गुरापाठा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00064	साल्हेखुर्द(गुरा)	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00065	निवारी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00066	साल्हेकलाँ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00067	नंदौरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	नांदी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00069	कल्याणपुर	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00070	सैला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00071	अंखीवाडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	अंतरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00073	आष्टा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00074	पिपरिया	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00075	कन्हरगांव	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00076	सजनवाडा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00077	पनवास	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00078	ताखलाकलाँ	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00079	बोरीखुर्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		00080	गोकलपुर	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00081	मोहगांव	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00082	धपारा(गंगे)	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00083	दुल्हापुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00084	तिघरा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00085	सरेखा खुर्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		00086	अमरला	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00087	दौदीवाडा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00088	बिरहोली	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00089	इन्दौरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00090	जाम		धानअसिचित	-	-	-	-
		00091	पांडरवानी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
	लखनादौन								
	आदेगांव								

		00045	खूबी रै.	धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	परासिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	गौराबीबी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	पाथरकाठी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	बोरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	औरापानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	रामनगरी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00052	पिपरिया मेहरा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00053	खखरिया	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00054	पाटन	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00055	मढी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00056	मोहगांवगुजर	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00057	पिडरई	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00058	सागर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	करछुवाई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	जोवा	धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00061	आदेगांव	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00062	बिचुवा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00063	मघवाडा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00064	जमुवा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00065	कटोरी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00066	बीबी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00067	आमई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	पूरवा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00069	डावा	धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00070	सुहागपुर	धानअसिचित	सोयाबीन	तुअर	-	-
	धूमा							
		00001	बिछुवा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	दरगढा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	बेलखेडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	बंथा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	सलैया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	मेहगांव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	सिलपनी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	जुगरई मा0	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	बंजारी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	खम्ही	धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	छपरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	घोघरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	डोंगरगांव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	पौडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	खमरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	धनककडीमा0	धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	झामर मा0	धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	धपारा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	मोहगांव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	मददेवरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	औरगढी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	चरगांव रै0	धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	बैनापिपरिया मा0	धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	केवलारी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	निधानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	गरघटिया मा0	धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	बावली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	थावरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	करनपुर रै0	धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	खैरनरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	जोबा	धानअसिचित	-	-	-	-

		00037	सनाईडोंगरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	मकरझिर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	घोघरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	धूरवाडा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	लिंगपानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	उकारपार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	पाठादेवरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	डुंगरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
	लखनादोन							
		00071	पिंडरई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	सिरमंगनी	धानअसिचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	-
		00073	भरगा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00074	गंगई	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00075	चूलगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	करनपुर	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00077	लखनादोन	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00078	मोहगांव कलां	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00079	सांगई माल	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00080	सिरोलीपार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00081	शिकारा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00082	सेलुवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	भिलमा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00084	पुरवा मा0	धानअसिचित	-	-	-	-
		00085	नवलगांव	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00086	सिहोरा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00087	धुरका	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00088	घोघरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00089	मलखेडा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00090	सहसना	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00091	भजिया	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00092	खमरिया गोसाईं	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00093	बुढवानी	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00094	बटका	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00095	खुरसीपार	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00096	मोहगांव खुर्द	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00097	बगलई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00098	आमई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00099	सेलुवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00101	बम्होडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00102	मडई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00103	गुगवारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00104	सहजपुरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00105	गनेशगंज	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00106	बिजना	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00107	रायचौर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00108	बदनौर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00109	जोगीगुफा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00110	बाम्हनवाडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	सिवनी							
	बण्डोल							
		00001	बखारी	-	-	-	मक्का	-
		00004	सागर	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	औरिया रै0	-	-	-	मक्का	-
		00006	छिंदरवार	धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00007	मनौरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00008	हिनोतिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	जाम	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00010	जैतपुरखुर्द	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	कन्हरगांव	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

		00012	हथनापुर		-	-	-	मक्का	-
		00013	पिपरिया		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00014	कमकासुर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00015	मडवा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00016	भाटीबाडा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00017	मुगवानीखुर्द		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00018	मारवोडी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00019	चंदौरी कलां		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00020	कोठिया		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00021	बिहिरिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00022	जमुनियां		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	दुकली		-	-	-	मक्का	-
		00024	बांकी		-	-	-	मक्का	-
		00025	जुरतरा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00026	गोरखपुर कलां		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00027	अलोनियां		-	-	-	मक्का	-
		00028	परासिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00029	बीसाबाडी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00030	कुकलाह		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00031	बणडोल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00032	गरठिया		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00033	दिघोरी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00034	मुगवानीकलां		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00035	पुसेरा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00036	भोगाखेडा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00037	सोनाडोगरी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00038	विहिरिया		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00039	खामखरेली		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00040	सिहोरा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00041	बलारपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	चारगांव		-	-	-	मक्का	-
	भोमा								
		00042	भाटीवाडा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00043	पौडी	धानसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00044	खिरखिरी	धानसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00045	महलोन्	धानसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00046	कलारबांकी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00047	थावरी		-	-	-	मक्का	-
		00048	डोकरराजी	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00049	बगलई	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00050	चन्दनवाडा कलां	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00051	चन्दनवाडा खुर्द	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00052	थावरी	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00053	हिनातिया		-	-	-	मक्का	-
		00054	आमाकोला		-	-	-	मक्का	-
		00055	डिवटी		-	-	-	मक्का	-
		00056	छतरपुर		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00057	मुण्डरई		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00060	खेरी		-	-	-	मक्का	-
		00061	जुरतरा	धानसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00063	खमरिया		-	-	-	मक्का	-
		00064	सिधोडी	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00065	इण्डासिवनी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00066	मानेगांव		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00068	छुई	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00069	उमरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00070	कान्हीवाडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00071	चूटका	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	भदेखारी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-

		00073	कामता	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00074	कदिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00075	भोमा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00076	भोमाटोला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00077	कन्हानपिपरिया		-	-	-	मक्का	-
		00078	सीलावाडा	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00079	छीतापार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00080	झीलपिपरिया		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00081	ईदावाडी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00082	उडेपानी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00083	विजपानीखुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00084	मुंडई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00085	माहलझिर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00086	समनापुर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00087	मेहरापिपरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00088	मैली		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00089	लुंगसा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00090	महराखापा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00092	पाथरफोडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00093	चीचबद	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00094	हुंगरिया		-	-	-	मक्का	-
		00058	जोरावारी	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00059	बम्हनी	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
	सिवनी 1								
		00107	बिकली		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00110	डोरलीछतरपुर		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00111	मैली		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00112	बोरदई		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00113	खैरी		-	-	-	मक्का	-
		00114	लखनवाडा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00115	बम्होडी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00116	संगई		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00117	जैतपुरकलौ		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00118	जमुनिया		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00119	कोहका		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00120	पीपरडाही		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00121	फुलारा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00122	पेरपा		-	-	-	मक्का	-
		00123	मोहगांव		-	-	-	मक्का	-
		00124	कातलबोडी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00125	कारीरात		-	-	-	मक्का	-
		00126	भंडारपुर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00127	खमरिया		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00128	चावडी		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00129	सीलादेही		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00130	नंदौरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00131	सुकवाह	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00132	गोपालगंज	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
		00133	बम्हनी	धानसिंचित	-	-	-	मक्का	-
	सिवनी 2								
		00095	कडीपार		-	-	-	मक्का	-
		00096	नगझर		-	-	-	मक्का	-
		00097	बीड़ावाडा रै.		-	-	-	मक्का	-
		00098	लुघरवाडा		-	-	-	मक्का	-
		00099	सिमरिया		-	-	-	मक्का	-
		00100	नरैला		-	-	-	मक्का	-
		00101	तिघरा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00102	लोनिया		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00106	कोहका		-	-	-	मक्का	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
मंडला	घघरी	घघरी								
			00039	खजरी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00040	जुनवानी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00041	लाटी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00042	खन्हरिया	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00043	डींगरमण्डला	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00044	रामहेपुर	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00045	बिलगाव	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00046	गजराज	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00047	छतरपुर	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00048	बनेहरी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00049	नाहरवेली	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00050	घुघरी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00051	टिकरिया	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00052	मंगा	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00053	छिवलाटोला	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00054	बन्हनी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00055	देबहारा	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00056	पाण्डकला	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00057	गौरयापाण्ड	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00058	खोडाखुदरा	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00059	चलनी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00060	बरवानी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00061	सहजर	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00062	बनिया	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00063	सुरेहली	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00064	चोबा	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00065	दुलादर	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00066	कुसमी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00067	भैसवाही	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00068	कचनारी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00069	सलवाह	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00070	चुरिया	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00071	सिंघनपुरी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00072	परसवाह	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00073	घोरेघाट	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00074	तबलपानी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00075	डुडादेह	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00076	कुटीददरगांव	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00077	किसली	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00078	ढेको	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00079	पाटन	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00080	उमरिया	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00081	खोडाखुदरा	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00082	इमलीटोला ऊर्फ लदिया	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00083	साफन	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00084	नेडार	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-

	मोहगांव								
	00001	कौआडांगरी		धानअसिचित	-	-		मक्का	-
	00002	बिलगढा माल		धानअसिचित	-	-			-
	00003	सिंगारपुर		धानअसिचित	-	-			-
	00004	उमरिया रेयत		धानअसिचित	-	-		मक्का	-
	00005	धनगांव		धानअसिचित	-	-		मक्का	-
	00006	बडझर		धानअसिचित	-	-		मक्का	-
	00007	चुभावल		धानअसिचित	-	-		मक्का	-
	00008	खीसी		धानअसिचित	-	-		मक्का	-
	00009	खान्हेगिठोरी		धानअसिचित	-	-			-
	00010	उमरडीह ऊर्फ पडादर		धानअसिचित	-	-			-
	00011	चाबी		धानअसिचित	-	-			-
	00012	अंडिया माल		धानअसिचित	-	-			-
	00013	खैरी माल		धानअसिचित	-	-			-
	00014	करेगांव		धानअसिचित	-	-			-
	00015	झुरगी पौडी		धानअसिचित	-	-			-
	00016	ठेआ		धानअसिचित	-	-			-
	00017	गिठार		धानअसिचित	-	-			-
	00018	गिठार मलपहरी		धानअसिचित	-	-			-
	00019	मोहगांव माल		धानअसिचित	-	-			-
	00020	मोहगांव रेयत		धानअसिचित	-	-			-
	00021	मुंगवानी		धानअसिचित	-	-		मक्का	-
	00022	मलवाथर		धानअसिचित	-	-			-
	00023	कुम्हरा		धानअसिचित	-	-		मक्का	-
	00024	बोडासिल्ली		धानअसिचित	-	-			-
	00025	पीपरदरी		धानअसिचित	-	-			-
	00026	रैगांव		धानअसिचित	-	-			-
	00027	देवगांव		धानअसिचित	-	-			-
	00028	सुडगांव		धानअसिचित	-	-			-
	00029	मुनू		धानअसिचित	-	-			-
	00030	कुडोपानी		धानअसिचित	-	-			-
	00031	मचला		धानअसिचित	-	-			-
	00032	पिपरिया		धानअसिचित	-	-			-
	00033	हराटीकुर		धानअसिचित	-	-			-
	00034	निधानी		धानअसिचित	-	-			-
	00035	बिलगांव		धानअसिचित	-	-			-
	00036	चंदवारा		धानअसिचित	-	-			-
	00037	चौगान		धानअसिचित	-	-		मक्का	-
	00038	पलेहरा		धानअसिचित	-	-			-
	नारायणगंज								
	नारायणगंज								
	00034	सिंगोधा		धानअसिचित	-	-			-
	00036	मानेगांव		धानअसिचित	-	-			-
	00037	घोंटखेडा		धानअसिचित	-	-			-
	00038	खम्हरिया		धानअसिचित	-	-			-
	00039	मोहगांव ऊर्फ पदमी		धानअसिचित	-	-			-
	00040	देवहार		धानअसिचित	-	-			-
	00041	सिकोसी		धानअसिचित	-	-			-
	00042	पटेहरा		धानअसिचित	-	-			-
	00043	कूडामैली		धानअसिचित	-	-			-
	00044	पडरिया ऊर्फ नारायणगंज		धानअसिचित	-	-			-
	00045	खैरी		धानअसिचित	-	-			-
	00046	कुम्हा		धानअसिचित	-	-			-

		00047	मैली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	चिरईडोंगरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	कोडरा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	बम्हनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	भावल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	गुजरसानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	मंझगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	मादोगढ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	कोडरा ऊर्फ चौकी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	कोबरीकला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	सलैया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00062	शाहा		धानअसिचित	-	-	-	-
	बीजाडाडी								
		00001	जंमनिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	समनापुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	खम्हेरखेडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	मंगरधा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	दुडवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	बारंगदा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	धनवाही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	चरगाव माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	पाठाचौरई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	लावरमुडिया माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	विजयपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	रमतिला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	बेलखेडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	टिकरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	पिपरिया खुर्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	बरवाही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	लालपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
	निवास								
	निवास								
		00001	पोनिया माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	लहसर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	चरगांव कला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	बिलनगरी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	भैसवाही माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	छिंदगांव		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00007	भौडी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00008	पाँडी माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00009	कंटगी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	महरासिवनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	सरसवाही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	पिपरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	सिंगपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	बस्तरी जर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	पायलीबाहर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	जंगलिया रयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	मोहपानी जर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	मेढी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	खैरानी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	झुरकी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	मनेरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	पाँडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	कोहानी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-

		00024	शडरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	भलवारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	हाथीतारा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	सतपहरी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	गुदलई माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	हरीसिंघौरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	धानमगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	भीखमपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	सुखरी संग्रामपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	भानपुरबिसौरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	अमगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	निवास		धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	आमाडोंगरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	पाठादेवगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	कटंगसिवनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	मोहगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	बम्हनी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	हिरनाछापर माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00043	कोहका		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	झिझरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	जिलेहटी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	मझगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	पददीकोना माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	जवेधा माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
			बबलिया						
		00050	डोभी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	सुखराम		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	बनार		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00053	बबलिया ऊर्फ देवरीकला		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00054	बरबटी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00055	डालाखापा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	मलठार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	जेवरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	जुझारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	खिन्हा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	बबलिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00061	मुकासखुर्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		00062	नैझर		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00063	कापा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00064	चकदेही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00065	छपरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	फडकीमाल		धानअसिचित	-	-	-	-
			नैनपुर						
			चिरईडोंगरी						
		00036	धतूरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	गोंझी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	बोरीपीपरडाही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	धीचगांव	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	केरेगांव	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	भालीवाडा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	घमरवाही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	जामगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	ईश्वरपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	रमपुरी		धानअसिचित	-	-	-	-

		00046	घटेशी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	पालासुन्दर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	रमगढी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	सूभवाडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	मल्धा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	सालीवाडा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	परसवाडा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	खोहरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	खुसीपार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	डिठौरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	झिरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	जैदेपुर	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	सकवाह कला	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	कजरवाडा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	सरी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00061	जहरमऊ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00062	मृगदरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00063	तिलई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00064	भडिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00065	धनपुरी रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	अमझर माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00067	धनपुरी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	धिरईडांगरी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00069	मानेगांव माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00070	पाडीवारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00071	इन्दी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	चंदिया जर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00073	कामतामाल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00074	सुरखी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00075	टाटरी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00076	बारगी		धानअसिचित	-	-	-	-
	नैनपुर								
		00001	भरभेली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	पुतरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	बीजेगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	पोटिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	झुलपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	तिन्दुआबम्हनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	रामदेवरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	बरबसपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	पाठासिहोरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	घूरवाडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	चिचोली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	सरी पिपरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	कन्हरगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	भैसवाही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	तूमेगांव	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	जलतरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	पिपरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	पिण्डरई	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00019	खिरखिरी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00020	पौडी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00021	जेवनारा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00022	रेवाडा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00023	छतरवाडा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00024	हीरापुर	धानसिचित	-	-	-	-	-

		00025	ओहानी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	सगौनिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00027	गौराछापर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00028	अलीपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	देल्हा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00030	मक्के	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	निवारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	समनापुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	नैनपुर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00034	उमरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00035	अतरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	बिछिया								
	अंजनिया								
		00001	रामनगर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00002	खिरहनी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00003	नकावल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00005	भावा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00006	हराभाट माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00008	माधोपुर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00010	जगनाथर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00011	करियागांव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	नारा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00013	दिवारा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00014	लफरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00015	मंगा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00016	आमाडोंगरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00017	बरबसपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00018	काताजर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00019	मानिकपुर माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00020	बटवार		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00021	ककैया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00022	पौडी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00023	झिगराघाट		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00024	बोकर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00025	अंजनिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00026	अहमदपुर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00027	बंजी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00028	मांद	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00029	कांसखेडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00030	मेढाताल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00031	औरई रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00033	उमरवाडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00034	धंगरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
	खटिया नारंगी								
		00035	धुतका		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00036	घरगाव		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00037	तिलरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00038	रात		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00039	डुगरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00040	मोचा		धानअसिंचित	-	-	-	-
	घुटास								
		00074	बरई		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00075	बीजा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00076	घुटास		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00077	सिधौरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00078	परसाटोला		धानअसिंचित	-	-	-	-

		00079	देवरीदादर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00080	केवेलारी कला		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00081	छपरतला		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00082	पिपरी माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00083	भाडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00084	मुडियारिचका		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00085	सहजपुरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00086	नंदराम		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00087	समनापुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00088	दाढी रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00089	कुम्हली रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00090	भानपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00091	सक्रवाह		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00092	कोलमगहन		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00093	पिपरी रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00094	मोहगांव रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00095	अंजनीमाल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00096	चन्दवारा रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
	बिछिया								
		00042	ठोढा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00043	कन्हारी कला		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00044	डीलवारा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00045	भुआ रैयत	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00046	नेवसा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00047	बिछिया रैयत	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00048	माझीपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00049	कटंगा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00050	खलौडी रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00051	खटोला		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00052	जोगीसोढा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00054	मोहाड		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00055	धरमपुरी माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00056	मनोहरपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00057	राजोमाल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00058	करजिया माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00059	घौरगा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00061	कडैला		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00062	सिझोरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00063	कोको रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00064	हराभाट		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00065	भीमा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00066	देई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00068	लपटी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00069	बुडला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00070	केवेलारी रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00071	खम्हरोटी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00072	मटावल ऊर्फ दानीटोला		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00073	निवसा		धानअसिंचित	-	-	-	-
	मवई								
		00097	धनगांव माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00098	अतरिया रैयत		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00099	मडफा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00100	साढा माल		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00101	अमवार		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00102	सारसडोली		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00103	मवई		धानअसिंचित	-	-	-	-

		00104	पखवार		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00105	बसनी रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00106	मझगांव		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00107	पौडी ऊर्फ बहुरमझा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00108	जमगांव		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00110	मैदा		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00111	परसेल		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00112	घांटा		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00113	टिकरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00114	मोतीनाला		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00115	लामपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00117	नरहरगंज		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00118	खलौंडी रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00119	चंदगांव		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00120	कुन्दी		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00121	भीमडांगरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
	मण्डला								
			बम्हनी						
		00001	खुसीपार		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00002	जारगी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00003	बठार		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00004	मसारा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00005	बहगा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00006	सुभरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00007	बोरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00008	ढेको	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	मुन्हेरा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00010	बम्हनीबुजर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00011	सिलगी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	देवगांव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	गवारा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00014	ठरका		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00015	लिमरुआ		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00016	भवरदा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00017	धीरगांव		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00018	टिकरवारा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00019	हिरदेनगर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00020	सुकतरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00021	बरगंवा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00022	गुडाअंजनिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00024	घुघरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00025	मधुपुरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	खडदेवरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	औघटखपरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	पदमी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	भपसा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	मलारी चक	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			मण्डला ब						
		00043	गवारी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00044	बकछेरागाँदी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00045	बकोरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00046	खारी		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00047	उमरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00048	सागर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00049	खुकसर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00050	फूलसागर		धानअसिंचित	-	-	-	-

		00051	तिंदनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	चटुआमार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	सेमरखापा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	गौड़ी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	कटरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	बिड़िया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	लालीपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	पुरवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	सकवाह		धानअसिचित	-	-	-	-
		00061	कौरगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00062	पीपरपानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00063	आमानाला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00064	बडी खैरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00065	बरबसपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	खुडिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00067	तिलईपानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	छपरी सिलपुरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00069	पटपरा रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00070	बिनेका		धानअसिचित	-	-	-	-
		00071	जंतीपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	टिकरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00074	बकछेरादोना		धानअसिचित	-	-	-	-
		00075	मवईजर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00076	मोहनिया पटपरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00077	किन्द्री		धानअसिचित	-	-	-	-
		00078	निरंदगढ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00079	पौडीमाल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00080	झालपानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00081	पटपरसिंगारपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00082	सिंगारपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00083	लिंगा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00084	मोहगांव चक		धानअसिचित	-	-	-	-
		महाराजपुर							
		00032	केहरपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	पौडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	मालीमोहगांव	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	इमलीगोहान		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	सिलपुरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	घाघा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	अहमदपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	साहूडडा		धानअसिचित	-	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची									
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा			
नरसिंहपुर	करेली	आमगाँव	00042	कंधरापुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00043	कपूरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00044	करताज	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00045	कोसमखेड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00046	निवारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00047	अम्हेटा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00048	सासबहू		-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00049	जोवा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00050	मोहद	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00051	बघुवार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00052	तिसरा		-	सोयाबीन	-	-	-			
			00053	बम्हौरी		-	सोयाबीन	-	-	-			
			00054	आमगाँवबड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00055	सिमरियाकलां		-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00056	पिपरिया(बसौंदिया)		-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00057	नयाखेड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00058	बासादेही		-	सोयाबीन	-	-	-			
			00059	गोबरगाँव	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00060	खिरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00061	बारहछोटा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00062	ग्वारीकलां	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00063	रमखिरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00064	हिनीतिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
			00065	माचामउ	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
				करेली									
						00019	ग्वारी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
						00020	घूरपुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
						00021	चिनकी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
						00022	समनापुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
						00023	उमरिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
						00024	देवाकछार		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
						00025	कुम्हड़ी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
						00026	रामपिपरिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
						00027	रातीकरारकलां		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
						00028	खैरी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
						00029	पिपरिया (लिगा)		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
						00030	राकई		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
						00031	पिपरिया (राकई)		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
						00032	कोदसा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
						00033	गोगावरी		-	सोयाबीन	-	-	-
						00034	जौहरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
						00036	जनोर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
						00035	इमलिया		-	सोयाबीन	-	-	-
						00038	खैरीनाका		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
						00039	कठौतिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
						00040	करेली		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
						00041	भुगवारा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00037	बसेड़ी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-			
	बरमान		00001	अमथनू	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-			

		00002	बम्हनी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00003	सुआतला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00004	पलोहा छोटा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	खमरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00006	रीछई	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00007	कुम्हरोड़ा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00008	बीतली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	बिचुआ		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00010	रमपुरा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00011	सरसला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00012	केरपानी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00014	हिरनपुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00013	गुरसी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00015	मिठली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00016	बरमानकला		-	-	तुअर	-	-
		00017	मानेगांव		-	-	तुअर	-	-
		00018	बीकोर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	गाडरवारा								
		करपगांव							
		00156	टेकापार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00157	नरसरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00158	कल्यानपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00159	पनारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00160	मालहनवाड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00161	खंचारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00162	करपगांव	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00163	वटेसरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00164	खमरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00165	चीकसा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00166	इमलिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00167	शाहपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00168	टिकटोली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00169	इमलिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00170	धमेटा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00171	भैरोपुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00172	सिल्हेटी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00173	खइई		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00174	खैरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	गाडरवारा								
		00091	कजरोटा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00092	वरहटा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00093	इमलिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00094	जमाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00095	वरेली	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00096	झांझनखेड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00097	आमगांव	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00098	कामती	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00099	गाडरवारा (नगरीय)	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00100	चिरहकला	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00101	चामचौन	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00102	वोदरी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00103	गरधा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00104	वगदरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00105	निवारी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00106	खिरिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00107	धोखेड़ा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00108	पलोहा वड़ा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00109	रिछावर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00110	टिमरावन	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-

		00111	अटेरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00112	खकरिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00113	नरवारा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00114	विचुआ	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
	चीचली								
		00065	महगवाँ कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00066	कान्हगाँव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00067	मगरमुर्हाँ	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00068	खैरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00069	गाँगई	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00070	छैनाकछार	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00071	हीरापुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00072	रातीकरार	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00073	तेदूखेड़ा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00074	मउ	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00075	सुखाखैरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00076	चीचली	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00077	थलवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00078	चारगाँव कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	बगलई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00080	आड़ेगाव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00081	सिंगपुर छोटा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00082	चारगाँव खुर्द	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00083	मोहपानी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00084	पटकुही	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00085	भिलमाढाना	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00086	खला	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00087	चौदनखेड़ा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00088	रायपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00089	कुड़ारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00090	चोरबरहटा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
	देवरी								
		00020	ढिगसरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00021	डुंगरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	धनीरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00023	बनवारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00024	पिठवानी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00025	दहलवाड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	देवरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	खैरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00029	बांसखेड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00030	मडगुला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00031	बम्हीरी कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00032	सुपारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00033	खुरसीपार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00034	नांदनेर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00035	बनखेड़ी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00036	बैरखेड़ी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00037	खमरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	आड़ेगाँव	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	बाबईकला								
		00039	पनागर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00040	सहावन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00041	मोहपा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00042	पचामा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	अमाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	वावईकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00045	वावईखुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	अर्जुनगाँव	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		00134	सिहोरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00135	अजनसरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00136	गरहा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00137	इमझिरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00138	खुलरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00139	सगौरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00140	अंडिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00141	डुगरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00142	हेमरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00143	वरमानखुर्द	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00144	लिंगा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00145	छोतापार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00146	वीतली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00147	खुरसूरु	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00148	गौरास	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00149	मडेसुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00150	रमखिरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00151	बासखेड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00152	महगुवा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00153	हरई	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00154	तुटी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00155	पूरगवा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	गोटेगांव								
	करकवेल								
		00001	सांकल	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00002	तुधगांव	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00003	बदैयाखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	देवरीकला	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00005	मोहास	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00006	अकोला	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00007	कंधरापुर	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00008	ठेमी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00009	कापखेड़ा	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00010	वौछार	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00011	वासनपानी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00012	मेख	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00013	करकवेल	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00014	मुश. पिपरिया	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00015	वम्हनी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00017	सिमरीवडी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00016	आंखीवाड़ा	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00018	टिकरी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00019	मानेगांव	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00020	इमलिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	कमती	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	पोनिया (डुगरिया)	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00023	गोहचर	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	गोटेगांव								
		00024	रेहली	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00025	भैसा	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00026	खोबी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00027	जमुनिया	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00028	मुआर	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00029	वेलखेडी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00030	चंदली	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00031	करेलीकला	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00032	वेलखेडी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00033	झासीघाट	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00034	सिलारी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-

		00035	पिपरिया			सोयाबीन	तुअर	-	-
		00036	सालीवाडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	कूसीवाडा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00038	खमरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	नौनी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00040	गरी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00041	मुरदई		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00042	कंजई		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00043	सिमरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	बगलई उजर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	छोटाछिंद, नगरीय		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	कमोद	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00047	कुन्हडाखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	गोटेगांवखेडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	बरोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		बरहटा							
		00070	कटकही	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00071	नगवारा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00072	नांदिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	पिपरसरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	चांदनखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	पिपरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	गुदरई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	सुरवारी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00078	मगरधा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	बेलखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	रीछा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	बेदू		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00082	बाबली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00083	बरहटा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00084	दौन	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	सिरकोना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	सिवनी (बंधा)	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00087	सिलवानी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00088	गाडरवाराखेडा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00089	खापा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00090	रोहिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00091	बुढेना		-	सोयाबीन	-	-	-
		श्रीनगर							
		00050	राजाकछार		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00051	देवनगर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00052	बगासपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00053	अतरिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00054	चंदलोन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	सर्रा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00056	कुक्लाह		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00057	पोनिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	मनकवारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	दबकिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00060	पिपरिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00061	कोरेगांव		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00062	कुंडा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00064	लाठगांव		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00065	गौरतला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	श्रीनगर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00067	भामा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00068	नेगुवा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00069	उमरिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		तेन्दुखेडा							

		चावरपाठा							
		00023	विल्थारी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00024	सिमरिया कला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00025	करहैया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00026	इमलिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-

		00027	छत्तरपुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00028	डोभी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00029	बरकुन्डा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00030	इमलिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00031	बैंधा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00033	नादिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	गुटोरी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00035	बिजौरा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00036	गुदरई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	विल्हरा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00040	टिगसरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	मैहगुवा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00043	नैनवारा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00044	चौवपाठा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00038	देवरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	लोलरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00041	काशीखेरी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00032	पड़रिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	डोभी								
		00001	महुआखेड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00002	दिलवार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00004	रम्पुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00005	पीपरवानी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00007	खमरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00008	इमझिरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00010	उमरपानी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00011	मदनपुर		-	-	तुअर	-	-
		00012	बैंधी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00013	भौरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00014	टेकापार	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00015	काचरकोना	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00017	गंगई	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00018	ग्वारी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00019	मनकापुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00020	भामा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00021	बीकोर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00022	हीरापुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00003	सागीनी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00006	विलगुवा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00009	तेन्दुखेड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	ईश्वरपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	नरसिंहपुर								
	नरसिंहपुर								
	1								
		00001	ढाना	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00002	बंदरोहा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00003	हीरापुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00004	अमौदा		-	-	तुअर	-	-
		00005	डोंगरगाँव		-	-	तुअर	-	-
		00006	मुगीखेड़ा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00007	पिठेहरा		-	-	तुअर	-	-
		00008	बंघी		-	-	तुअर	-	-
		00009	गरारू		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00010	मुराछ		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00011	करहैया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00012	घाट पिपरिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00013	गुड़वारा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00014	झामर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00015	चन्द्रपुरा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00016	बम्होरी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00017	तिंदनी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00018	नवागाँव		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00019	धवना		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00020	इमलिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-

		00021	नयाखेड़ा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00022	सगौनीखुर्द		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00023	धुबघट		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00024	रानीपिंडरई		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00025	सुपला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00026	खापा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00027	मचवारा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00028	पिपरिया मल्लाह		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00029	बड़गुवाँ		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00030	बेलखेड़ा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00031	झिरीखुर्द		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00032	डोंगरगाँव		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00033	घा पिंडरई		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00034	पॉसी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00035	भवलारा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00036	डोकरघाट		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00037	सूरजगाँव		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	नरसिंहपुर								
		00038	खमरिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00039	जरजौला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00040	नरसिंहपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	कंदेली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	देवरीकला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00043	नकटुआ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	खमतरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	रानीपिंडरई		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00048	धुबघट		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	सिंहपुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00050	लौकीपार		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00051	सिमरिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00046	रोसरा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	बचई								
		00052	भैसा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	पाला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00054	कल्याणपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	बारूरेवा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00056	झारखुरपा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	खुरपा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	डागीढाना		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00059	मुड़िया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	बहोरीपार		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00061	सहजपुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00062	चौराखेड़ा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00063	चीलाचौन कला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00064	चीलाचौन खुर्द		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00065	बड़गुवाँ		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00066	बचई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	करहैया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	बबरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
	मुगवानी								
		00069	बकोरी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00070	देवनगर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00071	मुगवानी		-	-	तुअर	-	-
		00072	पस्ताना		-	-	तुअर	-	-
		00073	गोहगावरी		-	-	तुअर	-	-
		00074	पीपरपानी		-	-	तुअर	-	-
		00075	ऊसरी		-	-	तुअर	-	-
		00076	रातोमाटी		-	-	तुअर	-	-
		00077	महगाँव	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00078	कोदरासकला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00079	खमरिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00080	गोरखपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00081	बालौद	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00082	पिपरिया		-	-	तुअर	-	-
		00083	बिचुआ	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00084	पांजरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00085	हुडवारा		-	-	तुअर	-	-
		00086	पाठा		-	-	तुअर	-	-
		00087	गडरिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00088	तिघारी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
सागर	किसली									
		केसली								
			00001	नवलपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	भैहारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	महूआखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	खमरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	देवरी नाहरमऊ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	भुसौरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	पलोह	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	खटोला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	केवलारीकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	सेमरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	विलहारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	मेढकी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	नाहरमऊ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	बरकोटीखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	बम्हनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00016	पटनाखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00017	जनकपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00018	नयानगर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00019	मेहका	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00020	गुटोरीपानी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00021	डोंगरपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	जैतपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	रामखेरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	पुतरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	केसली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	पठाखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	नारायणपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	अर्जुनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	दुधबारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	खेरीकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	टडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		सहजपुर								
			00026	मरामाधो	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	बाकोरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	तूमरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	थावरी उमरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	तुलसीपार	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	घाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	पटनादेवरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00039	सागोनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	अनघोरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	तेंदुडाबर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	सहजपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	चौका	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00044	झिरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	धवई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00046	चिखली जमुनिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00047	थावरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	बम्होरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00049	कुसुमी	-	-	सोयाबीन	-	-	-

		00050	बेडारपिपरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	सिंगपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	बगवारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	मूहली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	नादिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	मेहका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	चौराडोगरी	-	सोयाबीन	-	-	-
	खुरई							
	खिमलासा							
		00001	गिरहनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	भारछा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	निवारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	खडेसरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बसाहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	खिमलासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	गढौलीजवाहर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	मौहारसा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	भुगावली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बहरोल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	पथरियाजेगन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	नाऊढाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	मगरधा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	बारधा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	सेमरागनपतराव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	तलापार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	तेवरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	खोजाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	खेजराइज्जत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	ढिकुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	लाखनखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	सरखडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	सिलगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
	खुरई							
		00024	बागथरीपट्टी खुरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	खुरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	सतनाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	घोरट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	निर्तला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	धागर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	खेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	मूडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	सिलौधा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	जरवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	मुकारमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	खजरा हरचंद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	कठेली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	सिलापरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	महुनाजाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	कोरासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	बरोदिया नोनागिर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	बरोदिया नबाब	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	मझेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	तोडाकाछी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	करैयागुजर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	रैंचनवारस	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	बिलैया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	भीलोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	चांदपर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	कनऊ	-	सोयाबीन	-	-	-

		00050	नरौदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	बनहट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	गढौलाजागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	गनपत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	धनीरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	नगदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	गंभीरियाबुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	सिंगपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	नारधा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	गोलनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	बाहरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	बिनायठा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	धरमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	कुमरौल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	चौकापठारी	-	सोयाबीन	-	-	-
	गढकोटा							
	गढाकोटा							
		00001	टडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	चौका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	बोरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	घोगरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	चरखारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	विजयपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	रेगुवां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	मगरधा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	बेलई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	रतनारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	ऊमरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	दरारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	कंदला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	कुमेरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	बसाहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	पिपिरियाभुटोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	परासिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	चनौआबुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	जरियाखिरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बरखेरागाँवतम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	झूरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	हरदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	मडियाअग्रसेन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	चौरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	सजरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	पिपिरियाडिगरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	बिछिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	उदयपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	झागरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	गढाकोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	पिपिरियागुपाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	कैकरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	कुमरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	रोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	कुअरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	सेवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	कुडई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	बमनोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	बेरखेरीकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	छुल्ला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	फुलर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	बादीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00043	खैरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	तालसेमरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	देवलपानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	बलेह	-	सोयाबीन	-	-	-
	देवरी							
	गौरझामर							
		00001	मडखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	बरकोटीकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	बेरखेरीराजा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बिजौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	खामखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	जैतपुरकछया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	सरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	गौरझामर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	मढीजमुनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बहेरियाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	सालावारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	गुगवारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	गंगवारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	सुजानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	चरगुवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	पडरईबुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	चिरचिरा सुखजू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	चीमादाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	मानेगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	कोपरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	पिपरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	खतौला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	जैतपुर कोपरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	जमुनापुर पथरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	देवरी							
		00019	सिलारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बेलदाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	मसूरबाबरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	कंजेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	मुआरखास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	खजुरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	रायखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	पिपरिया पाठक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	छिंदली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	धुलतरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	कांसखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	बीना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	झुनकु	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	बिछुआ भवतरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	डोंगरसलैया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	मुडेरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	ककरीबेरखेरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	सिमरिय हराखेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	अनंतपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	मोकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	कुसमी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	इमझरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	पहला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	सिंगपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	सुना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	ईशुरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	देवरीखास	-	सोयाबीन	-	-	-
	महाराजपुर							

		00028	रीछई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	बिजौरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	झमारा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00055	नौरादेही	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00057	बारहा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	समनापुर साहजू	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	खकरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	महाराजपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	सिमरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	डोभी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	दुबेपथरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	रसैना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	पंजरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	मढपिपरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	तीतरपानी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	खमरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	पनारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	भरई	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	बण्डा								
	बण्डा								
		00043	बण्डा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	कांटी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	जगथर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	बीजरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	क्वायला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	जमुनिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	खजरामेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	चौकाभेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	पिपरिया चौदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	झागरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	बमूराभेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	पटौआ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	चीलपहाडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	भेडाखास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	बम्होरी सागर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	जेजटखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	घोघरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	बरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	लरेठी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	कंदवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	नैनधरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	सिग्रावन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	चारोधा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	मोकलमऊ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	हनौतासहावन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	गोराखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	खाहरमऊ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	बम्होरीखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	भडराना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	बिलौवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	सहावन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	चंदौख		-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	बूढाखेरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	घवोली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	मंजला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	मझगुवा		-	सोयाबीन	-	-	-
	बहरोल								
		00001	साजी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	झारई		-	सोयाबीन	-	-	-

		00003	सलैयाकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	कलरहो	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बम्होरीजगदीश	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	डांड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	पिडरूवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	बहरोल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	कुल्ल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	कोटिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	पिपरियाइल्लाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	सेमराअहीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	राखसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	पडवार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	नीमोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	हनीत उवारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	उल्दन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	बेसली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	कोटरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	राख	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	टांगिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	पाटन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	विनैका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	हिंडोरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	गनियारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	पिथौली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	भूसाकमलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	मगरधा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	सेमरादांत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	चकेरीविनैका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	पिपरिया चमारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	खुवारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	खोजमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	पजनारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	रीछईसागर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	कंदारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	छापरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	सिमरिया छापरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	गडर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	हनीतापटकुई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	फतेहपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	सौरई	-	सोयाबीन	-	-	-
	बीना							
		बीना						
		00036	बेलई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	धनोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	पीपलखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	बरदोस	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	पार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	हडकलखाती	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	किरोवदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	गढा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	पडरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	नोंगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	बीनाइटावा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	हिरनछिपा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	गुलौवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	हींगटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	रामपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	कोरजा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	सतौरिया	-	सोयाबीन	-	-	-

		00058	बरोदियाघाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	हरदौट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	ऐरन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	विधई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	सनाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	घनसरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	गोहर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	बामोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
	भानगढ							
		00001	पिपरासर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	छायनकाछी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	बरोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	देवल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	आनखडा मोहासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	गढौली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	कजिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	रामसागर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	लहरावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	हडकलजैन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	विन्धव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	बैधई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	करोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	भानगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	खजूरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	चमारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	ढाढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	मुडियादेहरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	गुरयाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	सेमरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	निबोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	लहटवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	गिरवर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	हिन्नौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	जोध	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	महादेवखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	सिरचोपी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	लखाहार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	बेसराकसोई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	पुरैना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	ढिमरौली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	हांसलखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	सरगौली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	आगासौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	देहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	कनखर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	विहरना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	बुखारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	किरौद	-	सोयाबीन	-	-	-
	माल्थोन							
	बांदरी							
		00032	हड्डुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	हडली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	बिसराहा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	रजवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	बनखिरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	उमरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	पथरिया बामन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	बंगेला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	ललोई	-	सोयाबीन	-	-	-

		00041	उजनेठ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	पथरिया चिंताई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	ढावरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	चन्द्रापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	बम्होरी हड्डा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	पालीरियतवारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	रजौआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	रेडोलमालगुजारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	सागोनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	बीजरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	नाऊढाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	झीकनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	पिटोरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	मूडरी पिठोरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	सेवन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	कोलुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	विदवासन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	आगासिरस	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	बांदरीकरोती	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	पहरगुवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	पिथौली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	अटाटोला	-	सोयाबीन	-	-	-
	मालथीन							
		00001	अटाकनैलगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	मालथीन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	इटवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	मांदरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	अंडेला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	बेसरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	कुंअरपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	सीपुरखास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	हरदौट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	पातोखंडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	बमनौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	सेमरालोधी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	खिरियाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	भैलैया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	परसोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	मढैयामाफी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	झोलसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	हिरनछिपा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	गोटूविजयपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	दुगाहाकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	आसौली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	नीधा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	रोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	मडावनगोरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	मडावनपायक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	बरोदियाकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	डबडेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	बीकोरकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	दरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	खटोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	समसपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
	राहतगढ							
	राहतगढ							
		00001	बटयाबदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	बासोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	विनायकी	-	सोयाबीन	-	-	-

		00004	झिला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बरखेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	रजवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	खरीगुमरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	बहादुरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	चंद्रापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	दरकोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	खैजामाफी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	मीरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	किटुवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	परासरीत्योदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	ओसानखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	कठोदाफाजलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	हिरनखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	भवुकाबारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	पेखलोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	महुनागुजर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	सामोनी उमरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	मानकी सलैया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	हिनीतिया कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	परासरी कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	उमरिया सेमरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	शिकारपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	सेमराभेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	चौकी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	मरदानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	विचपुरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	खजुरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	गंभीरियाहाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	मेनचाराकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	पडारसोई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	टीलाबुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	मानकचौक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	जलंधर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	बसियाभींती	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	लुहरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	बरोदिया बल्लभ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	सेमराचरखरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	बसियागंगे	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	पीपरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	ढगरानियां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	भैंसा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	सीहोसा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	सुमरेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
	रेहली							
		रहली						
		00001	छपरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	नवलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	निवारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	जूना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बगरोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	दरारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	कडला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	समनापुरकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	पटनाबुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बडगान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	पाटई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	रानगिर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	रामपुर	-	सोयाबीन	-	-	-

		00014	अचलपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	सिमरिया नायक		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	सोनपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	खैराना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	बेदवारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	रमखिरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	रहली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	खमरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	सांवलखिरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	इमलिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	विजयपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	नरेठा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	गुजौरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	धौनाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	पडरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	रतनपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	बरखेरासिकंदर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	रेवड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	कांसलपिपरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	खैजरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	तिखी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	सागोनीबूदेला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	काछीपिपरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	सहजपुरीकलां		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	मझगंवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	चांदपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	धनगंवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	रजवास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	छिरारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	बगासपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	गुडाकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	हिनांती	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	हरदुआरहली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	मूहलीबुर्जंग	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	पटनामूहली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	शाहगढ								
	शाहगढ								
		00001	अदावन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	किशनपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	जासौडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बरायठा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बगरोधा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	सेमरासानौधा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	तारपोह		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	बटवाहा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	कानीखुडीकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बराज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	नरवां		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	बगरोही		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	सिमरियाकलां		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	लुडयारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	सादपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	रामपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	तिगोडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	नेगुवां		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	अमरमऊ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	शाहगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	सासन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	बीलाग्राम		-	सोयाबीन	-	-	-

		00024	दुलचीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	पुराशाहगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	बसोना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	खटोराखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	रूरावन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	पापेट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	दलपतपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	खटोराकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	मगरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बमनोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	सांदागिर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	तिसुवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	मूडारीबुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	बरखेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	रवारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	बरेठी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	उजनेटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	गुंगराखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	डिलौना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	नौराज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	जालमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	सेनरारामचंद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	महूना	-	सोयाबीन	-	-	-
	सागर							
	जैसीनगर							
		00155	सेमादाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00156	देवलचोरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00157	किल्लाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00158	मसूरहाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00159	मनेशिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00160	टेहरा टैहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00161	मेहगोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00162	सागोनीखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00163	ढकरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00164	सेवन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00165	करहद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00166	तोडातरफदार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00167	सिंगारचोरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00168	बासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00169	सरखडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00170	चैनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00171	सत्तादाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00172	तेन्दुडाबर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00173	पडरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00174	औरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00175	करया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00176	बम्होरीघाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00177	साजी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00178	बंजरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00179	अगरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00180	बिजोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00181	रीछई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00182	जेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00183	जैसीनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00184	बेरखेरी गुसाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00185	डुगरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00186	विसनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00187	हडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00188	गैहँरासबुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-

नरयावली							
	00001	मूडराजरुवाखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-
	00002	चांदामऊ	-	-	सोयाबीन	-	-
	00003	खैराई	-	-	सोयाबीन	-	-
	00004	हनीतापारीक्षत	-	-	सोयाबीन	-	-
	00005	तोडागौतमिया	-	-	सोयाबीन	-	-
	00006	ईशुरवारा	-	-	सोयाबीन	-	-
	00007	सेमरालहरिया	-	-	सोयाबीन	-	-
	00008	कनेरानीखर	-	-	सोयाबीन	-	-
	00009	गडरियाढोंगा	-	-	सोयाबीन	-	-
	00010	किशनपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-
	00011	खाकरोन	-	-	सोयाबीन	-	-
	00012	जेरवारा	-	-	सोयाबीन	-	-
	00013	ढाना नरयावली	-	-	सोयाबीन	-	-
	00014	नरयावली	-	-	सोयाबीन	-	-
	00015	जेई	-	-	सोयाबीन	-	-
	00016	लोटना	-	-	सोयाबीन	-	-
	00017	जरारा	-	-	सोयाबीन	-	-
	00018	पाटन	-	-	सोयाबीन	-	-
	00019	भापेल	-	-	सोयाबीन	-	-
	00020	बडोरा	-	-	सोयाबीन	-	-
	00021	खिरिया नीखर	-	-	सोयाबीन	-	-
	00022	कोचरी	-	-	सोयाबीन	-	-
	00023	लुहारी	-	-	सोयाबीन	-	-
	00024	मैहर	-	-	सोयाबीन	-	-
	00025	देवरी	-	-	सोयाबीन	-	-
	00026	डावरी	-	-	सोयाबीन	-	-
	00027	इकंपनाबसौना	-	-	सोयाबीन	-	-
परसौरिया							
	00078	रूसल्ला	-	-	सोयाबीन	-	-
	00079	सिदगुवा	-	-	सोयाबीन	-	-
	00080	केरबना	-	-	सोयाबीन	-	-
	00081	बारछा	-	-	सोयाबीन	-	-
	00082	करीपुर	-	-	सोयाबीन	-	-
	00083	सिमरिया	-	-	सोयाबीन	-	-
	00084	मझगुवां	-	-	सोयाबीन	-	-
	00085	बम्होरीदुडर	-	-	सोयाबीन	-	-
	00086	गुडा	-	-	सोयाबीन	-	-
	00087	लिधौराहाट	-	-	सोयाबीन	-	-
	00088	साईखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-
	00089	पामाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-
	00090	सेमराअंगद	-	-	सोयाबीन	-	-
	00091	ढाना	-	-	सोयाबीन	-	-
	00092	हिलगन	-	-	सोयाबीन	-	-
	00093	खडेरामान	-	-	सोयाबीन	-	-
	00094	खिरियाखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-
	00095	रिछावर	-	-	सोयाबीन	-	-
	00096	भौहारी	-	-	सोयाबीन	-	-
	00097	लिधौराखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-
	00098	डुगांसरा	-	-	सोयाबीन	-	-
	00099	सानौधा	-	-	सोयाबीन	-	-
	00100	परसौरिया	-	-	सोयाबीन	-	-
	00101	पडरिया	-	-	सोयाबीन	-	-
	00102	गिरवर	-	-	सोयाबीन	-	-
	00103	भैसवाही	-	-	सोयाबीन	-	-
	00104	रंगोली	-	-	सोयाबीन	-	-
	00105	खैजराउदवेत	-	-	सोयाबीन	-	-
	00106	मगरोन	-	-	सोयाबीन	-	-
	00107	शाहपुर	-	-	सोयाबीन	-	-

		00108	धुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00109	आपचंद्र	-	सोयाबीन	-	-	-
		00110	चन्द्रपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00111	बेलईमाफी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00112	रिवड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
	सागर-1							
		00044	पगारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	पथरियाहाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	बेरखेरी सुवंश	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	बरखेराखुमान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	सेमराहाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	रानीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	मोठी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	सेवारा सेवारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	गढौलीकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	बहेरिया साहनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	सडेरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	गिटवानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	मोहली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	बड्कआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	बाछलोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	रिछोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	गढपैहरा मुहाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	कुजारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	भैसा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	बिहारीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	बम्होरी रंगुवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	रतौना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	बदौना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	रजौआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	आमेट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	मझगुंवा अहीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	बेरखेरीगुरू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	चितौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	पिपरिया रामवन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	बरनावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	खैराजबाग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	बम्होरी बीका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	मेनपानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	तिलीमाफी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	उदयपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	सागरखास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	करीला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	ललईटोरी	-	सोयाबीन	-	-	-
	सागर-2							
		00068	बरारू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	सेमराबाग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	रजाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	मकरोनियाबुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	पथरियाजाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	सिरौंजा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	बडतुमा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	गंभीरिया हाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	बहेरियागदगद	-	सोयाबीन	-	-	-

	सुरखी								
		00113	बरोदारहली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00114	घाटमपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00115	बिहारीखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00116	वंशिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00117	नारायणपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00118	करैया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00119	हनौताकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00120	मोकलपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00121	समनापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00122	गुरैया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00123	सुरखी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00124	भिडवासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00125	विदवास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00126	चतुर्भटा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00127	खमकुआ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00128	हीरापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00129	पिपरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00130	मडखेरा जागीर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00131	सीगना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00132	मूडरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00133	बेरखेडी मडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00134	विलहरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00135	खुरईथावरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00136	चारटोरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00137	बक्सवाहा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00138	केवलारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00139	कटंगी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00140	पनारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00141	महआखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00142	सेमरागोपालमन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00143	हिन्नौद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00144	बरोदासागर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00145	हनौतासागर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00146	तालचिरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00147	सोठिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00148	घूघर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00149	चकेरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00150	जमुनियागौड		-	सोयाबीन	-	-	-
		00151	कनेरागौड		-	सोयाबीन	-	-	-
		00152	सोमला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00153	मनकवाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00154	महआखेडा पैगवार		-	सोयाबीन	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की सूची

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची								
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा			
छत्तरपुर	गौरीहार	गौरिहार												
			00027	बदौराकला	-	-	तुअर	-	-					
			00028	पलटा	-	-	तुअर	-	-					
			00033	गौरीहार	-	-	तुअर	-	-					
			00034	गहवरा	-	-	तुअर	-	-					
			00037	खड़डी	-	-	तुअर	-	-					
			00038	पहरा	-	-	तुअर	-	-					
			00039	परेई	-	-	तुअर	-	-					
			00045	ठकुरा	-	-	तुअर	-	-					
				सरबई										
			00054		सरबई		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00051		पडरिया		-	-	तुअर	-	-			
			00060		पचवरा		-	-	तुअर	-	-			
			00062		महोईखुर्द			धानअसिंचित	-	-	-			
			00066		गोयरा		-	-	तुअर	-	-			
			00070		बसराही			धानअसिंचित	-	-	-			
	00061	महोईकला			धानअसिंचित	-	-	-						
		धवारा	धवारा											
	00001			बछरावनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
	00002			बूदौर	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
	00003			धवारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
	00004			स्वारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
	00005			कटोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
	00006			बारौ	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
	00007			सेवार	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
	00008			पनया	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
	00009			दडोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
	00010			बम्होरी खुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
	00011			हलावनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
	00012			मवई	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
	00013			रामटौरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
	00014			सोरई	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
00015	बमनौरा कला			-	-	सोयाबीन	-	-	-					
00016	दलीपूर	-	-	सोयाबीन	-	-	-							
00017	देवपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-							
00018	भेल्दा	-	-	सोयाबीन	-	-	-							
00019	अमरवा	-	-	सोयाबीन	-	-	-							
00020	बंधा	-	-	सोयाबीन	-	-	-							
	भगवां													
00021			भोयरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-					
00022			पनवारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-					
00023			सिमिरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-					
00024			विशवा	-	-	सोयाबीन	-	-	-					
00025			कुडैला	-	-	सोयाबीन	-	-	-					
00026			सोरखी	-	-	सोयाबीन	-	-	-					
00027			सरकना	-	-	सोयाबीन	-	-	-					
00028			बन्न	-	-	सोयाबीन	-	-	-					
00029			हरदौलपट्टी	-	-	सोयाबीन	-	-	-					
00030			पुरा पट्टी	-	-	सोयाबीन	-	-	-					
00031			भगवां	-	-	सोयाबीन	-	-	-					
00032	मदीखेरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-							

		00033	गोरखपुरा		-	सोयाबीन	-	-
		00034	झिगरी		-	सोयाबीन	-	-
चदला	बछौन							
		00037	बछौन		धानअसिचित	-	-	-
छतरपुर	ईशानगर							
		00026	पनौठा		-	सोयाबीन	-	-
		00027	गहरवार		-	सोयाबीन	-	-
		00028	पहाडगांव		-	सोयाबीन	-	-
		00029	ईशानगर		-	सोयाबीन	-	-
		00030	पठदा		-	सोयाबीन	-	-
		00031	वोडा		-	सोयाबीन	-	-
		00032	सीगोन		-	सोयाबीन	-	-
		00033	रामपुर		-	सोयाबीन	-	-
		00034	बीहटा		-	सोयाबीन	-	-
		00035	कुरी		-	सोयाबीन	-	-
		00036	बरदवाहा		-	सोयाबीन	-	-
		00037	रनगवां		-	सोयाबीन	-	-
		00038	काशीपुरा		-	सोयाबीन	-	-
		00039	खैरो		-	सोयाबीन	-	-
		00040	रम्पुरा		-	सोयाबीन	-	-
		00041	चौका		-	सोयाबीन	-	-
		00042	खडगांय		-	सोयाबीन	-	-
		00043	मातगवां		-	सोयाबीन	-	-
		00044	इकारा		-	सोयाबीन	-	-
		00045	हिम्मतपुरा		-	सोयाबीन	-	-
		00046	छीरावल		-	सोयाबीन	-	-
		00047	अतरार		-	सोयाबीन	-	-
		00048	रामगढ		-	सोयाबीन	-	-
		00049	बूदौर		-	सोयाबीन	-	-
	छतरपुर (अ)							
		00054	देरी		-	सोयाबीन	-	-
		00055	पटापुर		-	सोयाबीन	-	-
		00056	सौरा		-	सोयाबीन	-	-
		00057	गोरगांय		-	सोयाबीन	-	-
		00061	मोहवा		-	सोयाबीन	-	-
		00062	बारी		-	सोयाबीन	-	-
		00063	निवारी		-	सोयाबीन	-	-
		00065	सरानी		-	सोयाबीन	-	-
		00066	बरकोहा		-	सोयाबीन	-	-
		00067	बरायछखेरा		-	सोयाबीन	-	-
		00068	थरा		-	सोयाबीन	-	-
		00069	गंगायच		-	सोयाबीन	-	-
		00070	अतनिया		-	सोयाबीन	-	-
		00071	गठेवरा		-	सोयाबीन	-	-
		00073	गुरैया		-	सोयाबीन	-	-
		00074	ब्रजपुरा		-	सोयाबीन	-	-
		00075	पुछी		-	सोयाबीन	-	-
		00077	बदारी		-	सोयाबीन	-	-
		00078	नैगुवां		-	सोयाबीन	-	-
		00079	छापर		-	सोयाबीन	-	-
		00080	बसाटा		-	सोयाबीन	-	-
		00081	पडरिया		-	सोयाबीन	-	-
		00082	कदवां		-	सोयाबीन	-	-
		00059	कैडी		-	सोयाबीन	-	-
		00060	खोंप		-	सोयाबीन	-	-
		00064	कांटी		-	सोयाबीन	-	-
	छतरपुर (ब)							
		00053	ललौनी		-	सोयाबीन	-	-

		00052	ढडारी		-	सोयाबीन	-	-	-
	महेबा								
		00022	बनगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
नौगांव	नौगांव								
		00016	करारागंज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	आलीपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	बडागांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	पुतरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
	लुगासी								
		00045	लुगासी		-	सोयाबीन	-	-	-
बकस्वाहा	बकस्वाहा								
		00001	कंजरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	दरगुवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	भुजपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	डिमरुवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बाजना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	निमानी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	मझीरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	वीमरपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	तेईयामार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	गढोही		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	मढदेवरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	सानौदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	बकस्वाहा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	कुशमाह		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	पड़रिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	चचई सेमरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	गढीसेमरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	केरवारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	पानी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	किशुरपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	जैतुपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	सुनवाहा		-	सोयाबीन	-	-	-
	बम्होरी								
		00023	धरमपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	बम्होरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	मूढिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	गुगवारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	मढिया बुजुर्ग		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	घोघरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	निवार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	चौरई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	सेढारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	महटा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	नैनागिर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	मानकी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	बेरखेरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	मझगुवाघाटी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	देवपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	खमरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	सुजारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	देवरी		-	सोयाबीन	-	-	-
बडा मल्हरा	बडामलहरा								
		00001	खरदौती		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	बीरो		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	सिजवाहा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बमनीघाट		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	बंधा		-	सोयाबीन	-	-	-

11

		00008	पीरा	-	सोयाबीन	-	-
		00010	बीकना	-	सोयाबीन	-	-
		00011	डोंगरपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00013	देवपुर	-	सोयाबीन	-	-
		00015	करकी	-	सोयाबीन	-	-
		00018	रजपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00019	बरेठी	-	सोयाबीन	-	-
		00020	सतपारा	-	सोयाबीन	-	-
		00021	फुटवारी	-	सोयाबीन	-	-
		00022	कुंवरपुराकला	-	सोयाबीन	-	-
		00023	पिपराकला	-	सोयाबीन	-	-
		00024	लिधीरा	-	सोयाबीन	-	-
		00025	भोजपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00027	मनकारी	-	सोयाबीन	-	-
		00028	महाराजगंज	-	सोयाबीन	-	-
		00029	बडामलहरा	-	सोयाबीन	-	-
	सडवा						
		00030	राजापुर	-	सोयाबीन	-	-
		00031	सैंधपा	-	सोयाबीन	-	-
		00032	बरमा	-	सोयाबीन	-	-
		00033	धनगुवां	-	सोयाबीन	-	-
		00034	सूरजपुरा रोड	-	सोयाबीन	-	-
		00035	सडवा	-	सोयाबीन	-	-
		00036	कर्री	-	सोयाबीन	-	-
		00037	सूरजपुरा खुर्द	-	सोयाबीन	-	-
		00038	परा	-	सोयाबीन	-	-
		00039	मैलवार	-	सोयाबीन	-	-
		00040	छाईकुंवा	-	सोयाबीन	-	-
		00041	बमनी	-	सोयाबीन	-	-
		00042	परतापपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00043	सिगरामपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00046	जसगवां कला	-	सोयाबीन	-	-
		00047	सूरजपुरा कला	-	सोयाबीन	-	-
बिजावर	देवरा						
		00028	डारगुवां	-	सोयाबीन	-	-
		00029	बिजयपुर	-	सोयाबीन	-	-
		00030	जखरौन कला	-	सोयाबीन	-	-
		00031	सटई	-	सोयाबीन	-	-
		00032	नदगाय बटन	-	सोयाबीन	-	-
		00033	कसार	-	सोयाबीन	-	-
		00034	रजपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00035	नारायणपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00036	अमरपुरा	-	सोयाबीन	-	-

		00037	कुपिया	-	सोयाबीन	-	-
		00038	अमरौनिया	-	सोयाबीन	-	-
		00039	मझगुवाकला	-	सोयाबीन	-	-
		00041	मोतीगढ़	-	सोयाबीन	-	-
		00042	देवरा	-	सोयाबीन	-	-
		00043	लहर	-	सोयाबीन	-	-
		00044	धरमपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00045	पतरा	-	सोयाबीन	-	-
		00047	बडागांव	-	सोयाबीन	-	-
		00048	शाहगढ़	-	सोयाबीन	-	-
		00049	लुहरपुरा	-	सोयाबीन	-	-

		00060	बिहरवारा	-	सोयाबीन	-	-
		00061	झरकुआ	-	सोयाबीन	-	-
		00062	जैतपुर	-	सोयाबीन	-	-
	विजावर						
		00001	गढा	-	सोयाबीन	-	-
		00002	गुलगंज	-	सोयाबीन	-	-
		00003	बकस्वाहा	-	सोयाबीन	-	-
		00005	मउखेरा	-	सोयाबीन	-	-
		00006	मझगुवा खुर्द	-	सोयाबीन	-	-
		00007	अनगौर	-	सोयाबीन	-	-
		00008	मामौन	-	सोयाबीन	-	-
		00009	नयागाव	-	सोयाबीन	-	-
		00010	हटवाहा	-	सोयाबीन	-	-
		00011	पनागर	-	सोयाबीन	-	-
		00012	पिपट	-	सोयाबीन	-	-
		00013	जसगुवा खुर्द	-	सोयाबीन	-	-
		00014	भारतपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00015	नयाताल	-	सोयाबीन	-	-
		00016	वित्तगाय	-	सोयाबीन	-	-
		00017	बिजावर	-	सोयाबीन	-	-
		00018	गुलाट	-	सोयाबीन	-	-
		00019	बेरखेरी	-	सोयाबीन	-	-
		00020	पाटन	-	सोयाबीन	-	-
		00021	खेराकला	-	सोयाबीन	-	-
		00022	एरौरा	-	सोयाबीन	-	-
		00023	बकसोही	-	सोयाबीन	-	-
		00024	महुआझाला	-	सोयाबीन	-	-
		00025	पाली	-	सोयाबीन	-	-
		00026	लखन गुवा	-	सोयाबीन	-	-
		00027	रगौली	-	सोयाबीन	-	-
राजनगर	चन्द्रनगर						
		00062	लखेरी	-	सोयाबीन	-	-
		00064	पहाडी हीराजू	-	सोयाबीन	-	-
		00065	बमीठा	-	सोयाबीन	-	-
		00087	बरदवाहा	-	सोयाबीन	-	-

	बसारी							
		00035	पहाडी मैमारु	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	परा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	कोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	तिलोहां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	कर्ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	बिरोना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	पहरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	गढा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	कदौहा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	बसारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	बरैठी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	कुटिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	सांदनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	पारवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	सिलाबट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	भैरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	सलैया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	झमटुली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	कटारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	आँटापुरवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	बेडरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	गंज	-	सोयाबीन	-	-	-

		00061	खैरी	-	सोयाबीन	-	-	-
	राजनगर							
		00024	पाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	खजवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	हकीमपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	खजराहो	-	सोयाबीन	-	-	-
	ललपुर							
		00001	दुमरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	मनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	भ भुवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	तालगाँव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	ललपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	दलपतपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	सेवडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	गोमाकला	-	सोयाबीन	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
रीवा										
	गूढ									
		गूढ								
			00001	रीठी	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00002	पुरास	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00003	महसांव	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00004	खजूहा	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00005	बड़गांवा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00006	बंजारी		धानअसिंचित	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00007	गूढ	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00008	हरदुआ	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00009	करोदी		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00010	शिवपुरवा 601	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
			00011	पांती	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00012	बेला		धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
		दुआरी	00013	बदवार	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00014	गूढवा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00015	लोही		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00016	पुरवा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00017	ररूआ		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00018	उदवा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00019	बरसेता		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00020	जल्दर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00021	इटार		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00022	दुआरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00023	अमिलिहा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00024	तमरादेश		धानअसिंचित	-	-	-	-
	जवा	अतरैला	00017	शिवपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00018	कंचनपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00019	बरहूला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00020	भिटौहा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00021	चौखण्डी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00022	तैदनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00023	अतरैला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00024	जोन्हा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00025	कोनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00026	गडेहरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00027	इटमा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00028	पटेहरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00029	लूक	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00030	कटांगी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00031	गाढा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00032	बसरेही	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		जवा	00033	किरहाई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00034	अन्दवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00035	गौहाना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00036	बरेली खुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00037	छदहना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00038	डोडौ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00039	इटैरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00040	पथरोडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		00041	जवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00042	डगडैया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	सितलहा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	भनिगवां	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00045	जनकहाई	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00046	झलवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	अकौरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00048	बराह	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00049	पैरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
	डभौरा								
		00001	डभौरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00002	अकौरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00003	धूमन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00004	गैदुरहा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00005	दौंदर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	छतैनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00007	कोटवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	लोहगढ़	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	हरदोली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	कल्याणपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	पनवार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	मदरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	खाझा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	चम्पागढ़	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	बढाछ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00016	खम्हरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	त्यौंधर								
	गढी								
		00001	सूती	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00002	कडी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00003	पटहट	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00004	सोहवां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00005	घटेहा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00006	गोंद खुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00007	चांखडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	रेही	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	गढ़	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	टगहा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	कैथी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	चाकघाट								
		00026	चाक	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	चंदई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	सोहागी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	धूमा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00030	बरहट	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	जमुईकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	कलवारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	कटरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00034	मझिगवां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	बरा खुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00036	अमाव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	कोनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	बडागांव	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
	त्यौंधर								
		00012	कोटरा कला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00013	पनासी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00014	मनिका	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00015	महली	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-

		00016	नेगुरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00017	परसिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00018	कोनियागला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00019	कुठिला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00020	चिल्ला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00021	कोटराखुर्द	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00022	राजापुर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00023	त्योथर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00024	अजोरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00025	अमिलकोनी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	रायपुर सोनीरी								
		00040	दखरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00041	रायपुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00042	खाम्हा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00043	बुदाम्हा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	पडरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00045	अमिलिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	मांगी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	कोरांव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00048	ब्रसहट	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00049	रेरुआ	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00050	बजरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00051	सोनीरी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00052	नौडिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00053	ककरहा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
	नईगढ़								
	खर्वा								
		00015	पैकनगांव	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-
		00016	खर्वा	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-
		00017	मडना	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	फुलहा	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00019	उमरिया	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00020	खिरकी	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-
		00021	इटहाकला	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00022	तिवरिगवां	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00023	जुडवनियांमुरली	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	बन्नई	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00025	हिनीती	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	हडिया	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	चिल्ल	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	पुरैनी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
	नईगढ़ी								
		00029	हदीतिवरियान	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00030	टटिहरा कला	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	भलुहा	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	नईगढ़ी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	पथरौरा कला	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00034	जिलहडी	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	पुरवा	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00036	जोरोट	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	भरिगवां	धानअसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00038	छिउरिहा	धानअसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00039	केछुआ	धानअसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00040	बहती	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00041	करह	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00042	फूलकरन सिंह	धानअसिंचित	-	-	तुअर	-	-
	रामपुर								

		00001	कोट		धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	पहिलपार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	कुसहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	भीर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	अकौरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	रामपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	शिवराजपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	शाहपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	बर्होहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	बंधवा को0		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	देवरहनगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	कशियार गांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	मुडिला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	बेलाकमोद		धानअसिचित	-	-	-	-
	मउगंज								
	देवतालाबा								
		00001	सरई सेंगर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	पिडरियासेंगर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	मिसिरिहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	देवतालाब		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	घोरहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	नौदिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	ढनगन		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	डिघौल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	तडौरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	शुकुलगावां		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	सगरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	झलवार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	डिघवार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	उचेहरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	रजिगवां		धानअसिचित	-	-	-	-
	मउगंज								
		00031	जमुहरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	डगडौवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	सलैया रुस्तम		धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	पन्नी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	मुदरिया चौवान		धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	हिडवार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	घुरेहटा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	दुवगवां कुर्मियान		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	गंज		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	बरैया कला		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00041	भाठी सेंगर		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00042	वरहटा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	पकरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	नरैनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	पाडर		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00046	बहेराडाबर		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
	सीतापुर								
		00016	शिवपुरवा		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00017	सूजी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	खैरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	करकेसरा		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00020	सीतापुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	सरैहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	वनपाडर		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00023	कुलवहेरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	फरहटा		धानअसिचित	-	-	-	-

		00025	ढेरा		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00026	उंची		धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	पहाडी निरपतसिंह		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00028	करहिया		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00029	रतनगवा		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00030	रामपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
	मनगवा								
	गढ़								
		00001	बांस		धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	इटहा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00003	अगडाल		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00004	गढ़		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00005	लोरी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00006	माल		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00007	देवहटा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00008	गौंदरी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00009	डगरदुआ,		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00010	पहरखा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00011	परासी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00012	घुचियारी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00013	टिकुरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	सर नं; 1		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
	डेल्ही								
		00039	पथरहा	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	दुआरा	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	भौवार	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	सिलपरी	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	डेल्ही	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	देवगांव	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	पलिया	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	नवागांव	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	उलही कला	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	कांटी	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	रघुनाथगढ़	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	मनगवां								
		00027	बेलवा पैकान	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	आंवी	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	तिवनी	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	पचपहरा	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	जोरोंट	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बसेडा	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	गंगेव	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	मढीकला	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	सथिनी	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	चंदेह	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	रघुनाथगंज	धानसिचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	सूरा								
		00015	घोपी	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	गुडवा	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	संसारपुर	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	देवरा	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	करारी	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	महमूदपुर	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	पिपरवार	धानसिचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00022	सूरा	धानसिचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00023	नदना	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	सलैया	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-

		00025	कदौला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00026	कठैरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
रायपुर क									
	मनिकवार								
		00013	बरेही	धानअसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	बरहदी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	गौरगांव	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00016	सुरसागकला	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00017	उमरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	ब्यौहरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	पडरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	कुइयां कला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	टटिहरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	मनिकवार	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	हिनीती	धानअसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	हटवा	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	रायपुर कर्चुलियान								
		00001	बनछेरा -1	धानअसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	पडरा -2	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	रौरा -3	धानअसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	पहडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	पटना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	भलुहा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	रायपुर कर्चुलियान	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	लौहन्दवार	धानअसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	बुदिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
रीवा हजर									
	गोविन्दगढ़								
		00038	खैरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	तमरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	पडोखर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	रौरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	हदीशंकर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	अमिलकी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	बांसा	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00045	गोविन्दगढ़	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	मडुवा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	कस्तरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	सहजना	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	हिहिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	चुआं	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	नैकिन	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	सुपिया	धानअसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	टीकर	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
	रीवा								
		00020	सगरा	धानअसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	सोनौरा	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00023	अजगरहा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	करहिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	दुआरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	अगडाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	चोरहटा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	निपनिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	जोरी	धानअसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	लक्ष्मणपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	भटलो	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-

		00037	रौसर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	वन कड़ियां								
		00019	लौवा		धानअसिंचित	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00001	रूपौली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00002	चौरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	रहट	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	दादर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00005	मरहा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	बिहरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	कचूर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	मट्टघेपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	बैजनाथ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	भोलगढ़	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	धौचट		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	पैपखार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	बम्हौरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	सांव	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	बहरीबांध	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	अमवा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	इटहा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	मनकहरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
	सिरमौर								
	बैकुण्ठपुर								
		00014	तिलखन		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00015	डेल्ही		धानअसिंचित	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00016	बगढ़ दुबे		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00017	पटेहरा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00018	कटकी		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00019	मझियार		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00020	सथनी		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00021	बेढोवा		धानअसिंचित	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00022	मझिगवां		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	माडी		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00024	हर्दी कला		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00025	तैदून		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00026	बैकुण्ठपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	हटवा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
	लालगांव								
		00028	खैरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00030	देवास	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00031	बेलवा बउगैयन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	मौहरिया कोठार		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बडोखर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	चौरी		धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
		00035	लालगांव	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
		00036	कोलहाई		धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
		00037	पताई		धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
		00038	पनगडी कला		धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
		00039	हिनीती		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00040	सिसवा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00041	मटरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
	सिरमौर								
		00001	सिरमौर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00002	पडरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00003	डोल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00004	मउ		धानअसिंचित	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00005	बदरांव तिवरियान		धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
		00006	खैरहन		धानअसिंचित	-	-	-	-

		00007	कररिया		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00008	राजगढ़		धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	दुलहरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	शाहपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00011	उमरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	बरांव गौतमान		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00013	पल्हान	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	सेमरिया								
	शाहपुर								
		00016	बधरा	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	बडागांव	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	खारा	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	थनवरिया		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00020	पूर्वा		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00021	चचाई	धानसिचित	धानअसिचित	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00022	बरी	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	बीडा	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	शुकवार	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	शाहपुर	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	बीरखाम	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	हिनाता	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	मोहरवा	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	खडडा	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	सेमरिया								
		00001	बम्हनी गडीहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	रगौली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	बुसौल		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बरहामुडवार		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00005	कुम्हराजुडवानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	चकदही	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00007	देवरी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00008	बरा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00009	खम्बरिया	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	भमरा	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	सेमरिया	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00012	बडी हरई		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00013	हरदुआ	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	कुशवार	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	लैनबधरी	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	हनूमना								
	खटखरी								
		00019	हटवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	बैगहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	धर्मपुरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	खटखरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	देवरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	रामकुडवा		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00025	दमोदरगढ		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00026	सरदमन		धानअसिचित	-	-	-	-

		00027	पिपराही	धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	केलाशपुर	धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00029	बलभद्रगढ़	धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	विझौली गहरवार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	विझौली शुक्लान	धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	बढैया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	प्रतापगंज	धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	दुगौली	धानअसिचित	-	तुअर	-	-
	पहाडी							
		00001	करकचहा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	बसगडा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	गाडा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	राजाधौ	धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	पहाडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	फूल बजरंग	धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	पैपखरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	बहूती	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	पटेहरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	चाहना	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	बिछरहटा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	बरांवा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	सगहनकला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	पतुलखी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	शाहपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	गौरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	बलौही	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	धौसड	धानअसिचित	-	-	-	-
	हनूमना							
		00035	ढावा तिवरियान	धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	चरैया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	सलैया	धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00038	सगरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	हनूमना	धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	नाउनकला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	मिसिरगवां	धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	मलैगवां	धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	मझिगवां	धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	तिलया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	पटेहरा बस्ती	धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	बन्ना जवाहरसिंह	धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00047	बीरा देई	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00048	पांती मिसरान	धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00049	लासा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	लोढी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	हाटा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	जडकुड	धानअसिचित	-	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की								
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा		
शहडोल	गोहपारु	खन्नौधी	00001	सन्ना प.ह.नं. 1		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00002	विसनपुरवा प.ह.नं. 2		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00003	अकुरी प.ह.नं. 3		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00004	ददरा टोला प.ह.नं. 4		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00005	खोहरी प.ह.नं. 5		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00006	रतहर प.ह.नं. 6		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00007	मलमाथर प.ह.नं. 7		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00008	खंड प.ह.नं. 8		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00009	बरहा प.ह.नं. 09		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00010	खन्नौधी प.ह.नं. 10		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00011	नवागांव प.ह.नं. 11		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00012	लोढ़ी प.ह.नं. 12		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00013	पलसऊ प.ह.नं. 13		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00014	सरसी प.ह.नं. 14		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00015	पाथर प.ह.नं. 15		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			00016	दुलादर प.ह.नं. 16		धानअसिंचित	-	-	-	-			
				गोहपारु		00034	रामपुर प.ह.नं. 34		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00035	खाम्हा प.ह.नं. 35 दियापीपर हल्का नं. 35		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00036	सुडवार प.ह.नं. 39		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00037	मोहतरा प.ह.नं. 37		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00038	असवारी प.ह.नं. 38		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00039	गोहपारु प.ह.नं. 39		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00040	सेमरा प.ह.नं. 40		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00041	करुआ प.ह.नं. 41		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00042	देवदहा प.ह.नं. 42		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00043	देवरी प.ह.नं. 43		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00044	पटोरी प.ह.नं. 44		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00045	बोचकी प.ह.नं. 45		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00046	सकरिया प.ह.नं. 46		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00047	गोडारु प ह नं 47		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00048	पैलवाह प.ह.नं. 48		धानअसिंचित	-	-	-	-
					00049	कर्री प.ह.नं. 49		धानअसिंचित	-	-	-	-	
					00050	दियापीपर प.ह.नं. 50		धानअसिंचित	-	-	-	-	
					00051	हरहाटोला प.ह.नं. 51		धानअसिंचित	-	-	-	-	
				चुहिरी		00017	उमरिया प.ह.नं. 17		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00018	बरकोडा प.ह.नं. 18		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00019	भुरसी प.ह.नं. 19		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00020	महरोई प.ह.नं. 20		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00021	पोड़ी प.ह.नं. 21		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00022	भदवाही प.ह.नं. 22		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00023	हर्री प.ह.नं. 23		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00024	उचेहरा प. ह. नं. 24		धानअसिंचित	-	-	-	-
					00025	भर्री प.ह.नं. 25		धानअसिंचित	-	-	-	-	
					00026	नवाटोला प.ह.नं. 26		धानअसिंचित	-	-	-	-	
					00027	चुहिरा प.ह.नं. 27		धानअसिंचित	-	-	-	-	

		00028	चुहिरा प.ह.नं. 28		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	लेदरा प. ह. नं 29		धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	सगरा प.ह.न. 30		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	मझौली प ह नं 31		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	बरेली प.ह.न. 32		धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	बरमनिया प.ह.न. 33		धानअसिचित	-	-	-	-
			लफदा						
		00052	कनवाही प.ह.न.52		धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	गुरा प.ह.न. 53		धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	देवगढ़ प.ह.न.54		धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	लफदा प.ह.न.55		धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	गूढा प.ह.न. 56		धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	धनगवाँ प.ह.न.57		धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	देवरी प.ह.न. 58		धानअसिचित	-	-	-	-
			जयसिंहनगर						
			अमझोर						
		00088	लपरी 88		धानअसिचित	-	-	-	-
		00073	रिमर 73		धानअसिचित	-	-	-	-
		00074	छपराटोला 74		धानअसिचित	-	-	-	-
		00075	चंदौरा 75		धानअसिचित	-	-	-	-
		00076	मीठी 76		धानअसिचित	-	-	-	-
		00077	दरैन 77		धानअसिचित	-	-	-	-
		00078	जगड़ा 78		धानअसिचित	-	-	-	-
		00079	गजनी 79		धानअसिचित	-	-	-	-
		00080	कुदरी 80		धानअसिचित	-	-	-	-
		00081	तेंदुडोल 81		धानअसिचित	-	-	-	-
		00082	बड़काडोल 82		धानअसिचित	-	-	-	-
		00083	झारा 83		धानअसिचित	-	-	-	-
		00084	दरौंडी 84		धानअसिचित	-	-	-	-
		00085	अमझोर 85		धानअसिचित	-	-	-	-
		00086	गंधिया 86		धानअसिचित	-	-	-	-
		00087	दादर 87		धानअसिचित	-	-	-	-
			आमडीह 02						
		00013	बरकछ 13		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	तेंदुआढ़ 14		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	बराछ 15		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	गिरुईखुर्द 16		धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	छूदा 17		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	आमडीह 18		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	झिरिया 19		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	बलौंडी पश्चिम 20		धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	नगनौंडी 21		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	सन्नौसी 22		धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	ढोढ़ा 23		धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	पिपरी 24		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	बतौंडी 25		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	कीट 26		धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	बासा 27		धानअसिचित	-	-	-	-
			कनाडीखुर्द						
		00028	बसनगरी 28		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	टेटका 29		धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	कनाडीखुर्द 30		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	जमुनिहा 31		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	बसोहरा 32		धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	गिरुईबडी 33		धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	कनाडीकला 34		धानअसिचित	-	-	-	-

		00035	करकी 35		धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	बिजहा 36		धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	कोठिगढ़ 37		धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	धियार 38		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	बनचाचर 39		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	पसौंढ़ 40		धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	मसीरा 41		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	ठेंगरहा 42		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	देवरी 43		धानअसिचित	-	-	-	-
		जयसिंहनगर							
		00044	बरना 44		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	देवरा 45		धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	कतिरा 46		धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	कौआसरई 47		धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	ढोलर 48		धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	मोहनी 49		धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	चंदेला 50		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	जयसिंहनगर 51		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	गोपालपुर 52		धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	भटिगवाखुर्द 53		धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	लखनौटी 54		धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	कुबरा 55		धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	मसियारी 56		धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	सरवारी 57		धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	चितरांव 58		धानअसिचित	-	-	-	-
		टिहकी							
		00001	छतैनी 1		धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	पथरहटा 2		धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	रेंउसा 3		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00004	पौड़ीकला प.ह.नं. 04		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00005	हिड़वाह 5		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	बसही 6		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	जोरा 8		धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	सेमरा 9		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	झिरियाटोला 10		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	तगावर 11		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	घोरसा 12		धानअसिचित	-	-	-	-
		बनसुकली							
		00059	उचेहरा आबाद 59		धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	पतेरियाटोला 60		धानअसिचित	-	-	-	-
		00061	पौड़ी 61		धानअसिचित	-	-	-	-
		00062	मुदरियाटोला 62		धानअसिचित	-	-	-	-
		00063	छकता 63		धानअसिचित	-	-	-	-
		00064	पहड़िया 64		धानअसिचित	-	-	-	-
		00065	जमुड़ी 65		धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	बनसुकली 66		धानअसिचित	-	-	-	-
		00067	कृण्डाटोला 67		धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	चरहेंट 68		धानअसिचित	-	-	-	-
		00069	पथरवार 69		धानअसिचित	-	-	-	-
		00070	महुआटोला 70		धानअसिचित	-	-	-	-
		00071	भरी 71		धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	सीधी 72		धानअसिचित	-	-	-	-
	जैतपुर								
		केशवाही							
		00071	मलया प.ह.न. 71		धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	मझौली प.ह.न. 72		धानअसिचित	-	-	-	-
		00073	झिरिया प.ह.न. 73		धानअसिचित	-	-	-	-

		00074	हरीं प.ह.न. 74	धानअसिचित	-	-	-	-
		00075	सकरा प.ह.न. 75	धानअसिचित	-	-	-	-
		00076	बरगवां प.ह.न. 76	धानअसिचित	-	-	-	-
		00077	सिधली प.ह.न.77	धानअसिचित	-	-	-	-
		00078	करौवन प.ह.न.78	धानअसिचित	-	-	-	-
		00079	बचरवार प.ह.न.79	धानअसिचित	-	-	-	-
		00080	कुम्हारी प.ह.न.80	धानअसिचित	-	-	-	-
		00081	केशवाही प.ह.न.81	धानअसिचित	-	-	-	-
		00082	जमुनिहा प.ह.न.82	धानअसिचित	-	-	-	-
		00083	धनीरा प.ह.न. 83	धानअसिचित	-	-	-	-
		00084	मजीरा प.ह.न. 84	धानअसिचित	-	-	-	-
		00085	जमगांव प.ह.न.85	धानअसिचित	-	-	-	-
	चन्नौडी							
		00057	बहगड़ प.ह.न. 57	धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	सेमरिहा प.ह.न.58	धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	हँथगला प.ह.न.59	धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	निम्हा प.ह.न.60	धानअसिचित	-	-	-	-
		00061	चन्नौडी प.ह.न. 61	धानअसिचित	-	-	-	-
		00062	भमला प.ह.न.62	धानअसिचित	-	-	-	-
		00063	धोरवे प.ह.न. 63	धानअसिचित	-	-	-	-
		00064	बैरिहा प.ह.न. 64	धानअसिचित	-	-	-	-
		00065	खरला प.ह.न. 65	धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	देवरी प.ह.न. 66	धानअसिचित	-	-	-	-
		00067	बलबहरा प.ह.न.67	धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	अमलई प.ह.न.68	धानअसिचित	-	-	-	-
		00069	ढोलकू प.ह.न. 69	धानअसिचित	-	-	-	-
		00070	गिरवा प.ह.न. 70	धानअसिचित	-	-	-	-
	जैतपुर							
		00017	चन्द्रपुर प.ह.न. 17	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	राघोपुर प.ह.न.18	धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	कमता प.ह.न. 19	धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	खोढरी प.ह.न.20	धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	जैतपुर प.ह.न.21	धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	पैरीबहरा प.ह.न.22	धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	बिड़ौरी प.ह.न. 23	धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	साखी प.ह.न.24	धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	नगपुरा प.ह.न. 25	धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	खोहरा प.ह.न. 26	धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	कदौड़ी प.ह.न. 27	धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	बलभद्रपुर न01.न 28	धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	गलहथा प.ह.न.29	धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	नवाटोला प.ह.न.30	धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	सेजहाई प.ह.न. 31	धानअसिचित	-	-	-	-
	बिजुरी							
		00032	छतई प.ह.न. 32	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	खम्हरिया प.ह.न.33	धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	घुनघुटा प.ह.न.34	धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	खरतौरा प.ह.न.35	धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	बिजुरी प.ह.न. 36	धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	रमनाकन्हेर प.ह.न.37	धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	ममरा प.ह.न.38	धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	रैकोबा प.ह.न.39	धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	दरसिला प.ह.न. 40	धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	बिलटिकुरी प.ह.न41	धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	कोलमी प.ह.न.42	धानअसिचित	-	-	-	-
	रसमोहनी							
		00001	भरुहा प.ह.न. 1	धानअसिचित	-	-	-	-

		00002	वरगवां प.ह.न.2		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00003	भोगडा प.ह.न.3		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00004	अमहा प.ह.न. 4		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00005	रसमोहनी न.5		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00006	टिकुरी प.ह.न.6		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00007	तितरा प.ह.न.7		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00008	बदौड़ी प.ह.न. 8		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00009	खैरहनी प.ह.न.9		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00010	नौगवां प.ह.न. 10		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00011	मोहतरा प.ह.न.11		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00012	घोघरी प.ह.न.12		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00013	मलया प.ह.न.13		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00014	कचहर प.ह.न.14		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00015	अठिया प.ह.न. 15		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00016	कोल्हवा प.ह.न.16		धानअसिंचित	-	-	-	-
			रूपौला						
		00043	गौंडिनबूडा प.ह.न.43		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00044	कदमहा प.ह.न.44		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00045	टेंघा प.ह.न. 45		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00046	खांडा प.ह.न. 46		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00047	कुडडी प.ह.न. 47		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00048	रूपौला प.ह.न. 48		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00049	कोटा प.ह.न. 49		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00050	कुम्हेडिन प.ह.न.50		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00051	धुम्माडोल प.ह.न.51		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00052	कुडेली प.ह.न.52		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00053	चकौडिया प.ह.न.53		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00054	खाम्हीडोल प.ह.न.54		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00055	बोकुरामार प.ह.न.55		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00056	शाहपुर प.ह.न.56		धानअसिंचित	-	-	-	-
			बूढार						
			खैरहा						
		00032	खन्नाथ प.ह.नं.32		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00034	खैरहा प.ह.नं.34		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		00035	धमनीकला प.ह.नं.35		-	सोयाबीन	-	-	-
			धनपुरी						
		00019	.विक्रमपुर प.ह.नं 19		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00020	धनपुरा प.ह.नं.20		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00021	बरतरा हल्का नं.21		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00023	गोपालपुर प.ह.नं 23		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00024	सरईकोपा प.ह.नं 24		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00025	धनपुरी प.ह.नं.25		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00027	.बेम्हारी प.ह.नं.27		धानअसिंचित	-	-	-	-
			बूढार						
		00001	.नौगई प.ह.नं.1		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00002	.चंगेरा प.ह.नं.2		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00003	छांटा उर्फ नवाटोला प.ह.नं.3		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00004	बिरुहली प.ह.नं.4		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00005	चाका प.ह.नं.5		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00006	खम्हरौंध प.ह.नं.6		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00007	बिछिया प.ह.नं 7		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00008	अतरिया प.ह.नं. 8		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00009	रामपुर प.ह.नं. 9		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00010	पडरिया प.ह.नं.10		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00011	बटुरा प.ह.नं.11		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00012	बकहो प.ह.नं.12		धानअसिंचित	-	-	-	-

		00023	तिखवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	खैरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	धाधोकई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	भोलहरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	भोलहरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	खुटेहरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	कल्हारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	नौदिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	ब्यौहारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	मृदरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	खामडाइ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	मउ		धानअसिचित	-	-	-	-
	सोहागपुर								
		अमरहा							
		00048	कलमनिया प.ह.नं.		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00049	पतखई प.ह.नं.49		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00050	पठरा प.ह.नं. 50		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00051	भमरहा प.ह.नं. 51		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00052	.करुआताल प.ह.नं 52		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00053	मइया प.ह.नं.53		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00054	भानपुर प.ह.नं. 54		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00056	अमरहा प.ह.नं.56		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00057	बमुरा प.ह.नं. 57		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00058	.कौतिया प.ह.नं.58		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00059	सामतपुर प.ह.नं 59		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00060	हरदी प.ह.नं. 60		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
	कंचनपुर								
		00008	खेतौली प.ह.नं. 08		धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	सेन्दुरी प.ह.नं. 08		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	पोगरी प.ह.नं. 10		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	हरदी प.ह.नं.11		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00012	नवलपुर प.ह.नं.12		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00013	लालपुर प.ह.नं. 13		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	छाता प.ह.नं.14		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	उधिया प.ह.नं.15		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	कंचनपुर प.ह.नं.16		धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	हरी प.ह.नं. 17		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	धुरवार प.ह.नं. 18		धानअसिचित	-	-	-	-
	सिंहपुर								
		00034	जुगवारी प.ह.नं.34		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	बंधवाबडा प.ह.नं.35		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	पचगांव प.ह.नं. 88		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	सिंहपुर हल्का नं		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	बोडरी प.ह.नं.45		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00046	मिठौरी प.ह.नं.46		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	झगरहा प.ह.नं. 36		धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	दूधी प.ह.नं.38		धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	रैताझर प.ह.नं.41		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	पडमनिया कलाप.ह.नं.43		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	नरगी प.ह.नं.44		धानअसिचित	-	-	-	-
		0047	हराटोला प.ह.नं.47		-	सोयाबीन	-	-	-
	सोहागपुर नं. 2								
		00001	बिजौरी प.ह.नं. 01		धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	नरवार प.ह.नं. 02		धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	छतवई प.ह.नं. 03		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	बरुका प.ह.नं. 04		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	देवगांवा प.ह.नं. 05		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	पटासी प.ह.नं. 06		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	पटासी प.ह.नं. 57		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	श्यामडीहखुर्द प.ह		धानअसिचित	-	-	-	-
	सोहागपुर नं. 1								
		00019	. जमुई प.ह.नं.19		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	कोटमा प.ह.नं.		धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	मैकी प.ह.नं. 23		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	सेन्दुरी प.ह.नं.29		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00030	खोल्हाइ प.ह.नं.30		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	चुनिया प.ह.नं 31		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	खन्हरियाकला प.ह.नं. 83		धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	मझगांवा प.ह.नं.33		धानअसिचित	-	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
खण्डवा	खंडवा	चिचगोहन								
			00001	धनगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	देलगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	बेड़ियां खुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	तलवडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	कांकरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	अतर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	रेवाड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	बामझर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	सालई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	केसून	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	लखनगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	जामन्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	चिचगाोहन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	रोशिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	रोहनाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00016	नावली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00017	सिरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00018	टिटगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00019	देवला माफी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00020	अजंटी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		छेगांव माखन								
			00021	टेमी कलां	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	टोकरखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	देशगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	बरुड़	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	छिरवेल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00026	बिलनखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	काल्दाखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	भोजाखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	भिंगावा नानकरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	मलगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	अहमदपुर खेगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	सुरगांव जोशी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	सोनूद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	छेगांव माखन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	भुईफल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	सिरसोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	हरसवाड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	दौंदवाड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00039	टाकली मोरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	छेगांव देवी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		जावर								
			00041	कवेश्वर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	कोलगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-

		00043	रनगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	जामली सैय्यद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	भैसावा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	सहेजला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	पीपलकोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	केहलारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	जामली मूंदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	दोरानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	पीपल्याफूल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	खेड़ी किता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	भकराड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	ढोढवाड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	अटूट भिकारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	तलवड़िया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	जावर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	पलकना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	धनगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	रोहणी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	सुरगांव बंजारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	माथनी बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	बैनपुरा कुरवाड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
			खंडवा १					
		00064	राई खुटवाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	मछौंडी रै०	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	सीवना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	सांवखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	सतवाड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	मूंदवाड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	सिहाड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	गोकुलगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	पीपल्या तहार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	बिजोरा भील	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	डोंगरगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	कालमुखी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	अमोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	मातपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	पीपल्या पुनासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	नागचून	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	खंडवातरफकुंबी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	खंडवातरफमाली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	सुजापुरकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	नहाल्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	बड़गांव माली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	अमलपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	धरमपुरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00087	भामगढ़ (नजूल)	-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	रामपुरा कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00089	भावसिंगपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00090	रूधी	-	सोयाबीन	-	-	-
			खंडवा २					
		00091	बेड़ियांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00092	जसवाड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00093	तीरदाजपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00094	बमनगांव आखई	-	सोयाबीन	-	-	-

		00095	खडवातरफमानकर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00096	रोशनाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00097	कोरगला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00098	पंजरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00099	बोरगांव खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00100	सीरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00101	बड़गांव गुर्जर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00102	टिगरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00103	लोहारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00104	हापला	-	सोयाबीन	-	-	-
	सिंगोट							
		00105	मोरदड़	-	सोयाबीन	-	-	-
		00106	खिड़गांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00107	बड़गांव पिपलौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00108	बिहार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00109	कोहदड़	-	सोयाबीन	-	-	-
		00110	छनेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00111	पाइल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00112	लछेरा कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00113	गांधवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00114	चीचखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00115	जीरवन (चारखेड़ा)	-	सोयाबीन	-	-	-
		00116	सिंगोट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00117	जलकुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00118	सुतारखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00119	गरणगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00120	भगवानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00121	रांजनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00122	पोखरकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00123	पांगरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00124	अम्बापाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00125	बलवाड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
	पीपलौद खास							
		00126	पीपलौद खास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00127	रामपुरी रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00128	सराय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00129	भीलखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00130	कुमठा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00131	हीरापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00132	नहारमाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00133	कारपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00134	चांदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00135	टाकल खेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00136	ईटवा रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00137	सेमल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00138	राजगढ़ रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00139	बरार रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00140	हंडिया खेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00141	गुड़ीखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00142	भूतनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00143	छीरवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00144	गोंडवाड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00145	गुजरी खेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00146	बामन्दा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00147	बोरखेडा खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00148	भीलाई खेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
	खालवा							
	खालवा							
		00001	मदनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	खेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	रजूर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	जोगीबेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	आशापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	कालाआम कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	कालाआम खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	मीरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	भगांवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	साल्याखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	कुंदई माल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	मलगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	भडुंग्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	सीरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	मोहन्या भाम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	सुकवी रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	जूनापानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	मल्हारगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	खालवा पु०आ०	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	सावली खेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	कोठ रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	लखोरा रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	मोहन्या खेरडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	खारकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	राजपुरा बखार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	जामन्या कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	जामन्या खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	नामापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	दौगल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	देवली कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	देवली खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	कुम्हार खेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	रायपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	संधवाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	घुटी घाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	बूटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	गुलाई माल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	करवानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	खुटवाडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	रोशनी							
		00040	ढकोची	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	गारबेड़ी रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	मोजवाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	जामधड़	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	मातापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	चैनपुर सरकार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	जामन्याआशापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	फेफरी सरकार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	खोकरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	मैदापानी	-	सोयाबीन	-	-	-

		00050	झाभिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	पाडल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	टीगरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	जामन्या सर०	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	रन्हाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	खोरदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	पटाजन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	लंगोटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	उदियापुर रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	पटालदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	अम्बाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	महालखारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	रोशनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	धावडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	बारा कण्ड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	भोजदाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	खमलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	टीमरनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	लखनुपर रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	चबुतरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	मेहलू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	खातेगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
	पधाना							
	इल्हार							
		00001	मीर्जापुर भोंडवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	भीलखेडी तुलई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	पोखरकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	डाभी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	नीहालवाड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	बरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	खारवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	आवल्या खारवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	कोलाडिट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	संगवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	बडिया ग्यासुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	कोंडावत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	मोकलगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	चमाटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	सोनगीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	आबूद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	सीलौदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	सैयदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	इल्हार	-	सोयाबीन	-	-	-
	पधाना							
		00020	पीपलौद खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	रुस्तमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	पधाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	बलखड घाटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	पोखर खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	मोहनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	गोराडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	बाबली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	खेडी तपेघाटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	राजपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00030	उमरदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	पाबई खुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	बीलुद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	मोडवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	जामली राजगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	राजगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	दीवाल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	घाटीखास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	नानखेडा(कालका)		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	अंजनगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	अरुद		-	सोयाबीन	-	-	-
	बोरगांव बु०								
		00041	माकरला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	बलरामपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	धनोरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	बागमला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	खीराला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	ईस्लामपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	सुल्तानपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	पांचम्बा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	शाहपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	जामली कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	शेखपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	सेगवाल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	टेमी खुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	सारोला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	बगमार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	टाकली कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	पीपरहट्टी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	बोरगांव बु०		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	राजोरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	डोंगरगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
	पुनासा								
	माधाता								
		00001	मोरटक्का माफी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	मोरघडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	भोगावा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बील्लौरा बुर्जग		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	गोदइपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	सैलानी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	कोठी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	बिलाया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	गुंजली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	सुलगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	खेडी बुर्जग		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	मथेला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	नेतन गांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	नरलाय		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	करोली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	घोघलगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	एखण्ड		-	सोयाबीन	-	-	-
	मोहना								
		00018	सक्तापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	केलवा खुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-

		00020	ईन्धावडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	गुर्जर खेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	रीछफल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	मोहना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	गोल सैलानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	हरवंशपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	बोराडी माल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	दीयानतपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	अट्ट खास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	डूडगावं	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	फीफराड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	भगवानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	देवला रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	खुटला कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	जलवा बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	कोदवार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	नवल गांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	बडनगर रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
	पुनासा							
		00038	माकडकच्छ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	धमनगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	नांदखेड़ा मा०	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	फीफरी माल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	दोलतपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	दामखेड़ा कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	पुनासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	रीछी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	सरल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	अंजनिया खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	अंजनीया कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	पालसुद रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	रोहणी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	उटावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	जामकोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	गुलगावं रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	जलकूआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	बीजौरा माफी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	बांगरदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	चीकटीखाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	पामा खेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	डण्ठा	-	सोयाबीन	-	-	-
	मुंदी							
		00060	डाबरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	भगवानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	फेफरिया कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	मोहन्या कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	सीवरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	दीनकरपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	दोहद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	सातमोहनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	पीपलकोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	चीचली खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	इजलवाड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	जामन्या	-	सोयाबीन	-	-	-

		00072	गुयडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	खैगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	दुधवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	मूंदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	मोहद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	बीड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	गौराड़िया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	कौड़या खेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	छालपीखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	सोमगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	सींगाजी	-	सोयाबीन	-	-	-
	हरसूद							
	कील्लौद							
		00001	झागरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	जुनापानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	लछौरा माल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	सेमरूड रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बरमलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	रगरबडी माल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	सोमगांवखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	गंभीर उबारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	रोसड माल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	कील्लौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	बील्लौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	कुकसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	मालूद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	जैतापूर कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	झीगादड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	लहाडपूर माल	-	सोयाबीन	-	-	-
	हरसूद							
		00017	भवरली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	पीपलानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	धनोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बहेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	दगडखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	मुगल रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	बडखालिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	भराडी रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	रेवापूर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	मोजवाडी माल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	शाहपूर माल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	पलानी माल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	बोथिया खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	छापा कुण्ड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	सोनखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	बोरीसराय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	धारूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
	छनेरा							
		00034	तोरनीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	रामपूरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	नीशानिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	भवानिया रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	डोटखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	बरुड माल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	कसरबद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	बेडियाव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	मंडला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	उडैल रैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	सेल्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	चारखेड़ा पुलिस आ.	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	प्रतापपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	देवलदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	छनेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	सडियापानी पु आ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	सडियापानी सर०	-	सोयाबीन	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
मन्दसौर	गरोठ	वृत्त-1-गरोठ	00001	बरोमा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	खडावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	चचावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	बालोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	भामखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	उदल्याखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	दाबला मोहन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	मोलाखेडी बुजुर्ग	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	ढलम्	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	देथली बुजुर्ग	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	देथली खुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	सेमरोल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	पिपलखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	एरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	बरखेडा गागासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00016	गुराडिया नरसिंह	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00017	पिपलिया राजा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00018	पनवाडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00019	लसुडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00020	रत्नायती	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00021	देवरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	साठखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	खजूरी रुण्डा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	रणायरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	आक्या कुवरपदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00026	बरखेडा लोया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	पिपलिया जति	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	बासगोन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	बंजारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	बामनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	बडिया इस्तमुरार	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	ढाकनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	कुरलासी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	पिपलिया मिठेशाह	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	कुंडालिया चरणदास	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	गरोठ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	बडिया अमरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	दसोरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00039	गुराडिया माता	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	पिपलिया मोहम्मद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	पावटी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	फूलखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	खजूरी दौंडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00044	चिकन्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	कोठडा बुजुर्ग	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00046	खारखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00047	बोलिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	चांदखेडी खुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-

दलीदा	वृत्त 1 आकोदडा								
		00001	नन्दावता	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00002	डोराना	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00003	जवासिया	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00004	करनाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00005	करजू	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00006	आकोदडा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00007	राकोदा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00008	गुराडिया लालमुहा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00009	सेमलियाहीरा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00010	पाडलिया लालमुहा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00011	टोलखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00012	फतेहगढ	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00013	बानीखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00015	दलोदा रेल	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00016	एलची	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00017	पटेल	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00018	मजेसरा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00019	देहरी	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00020	चादाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00021	सगवाली	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00022	गरोडा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00023	बनी	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00024	कटलार	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00025	भावगढ़	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00026	धंधोडा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00027	बालोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00028	नादवेल	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00029	बेहपुर	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00030	खोडाना	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00031	खजुरिया सारंग	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00032	निम्बोद	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00033	रिखालालमुहा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00034	दलोदा सगरा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00035	सरसोद	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00036	गुराडिया स्याह	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00037	लसुडिया ईला	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00038	कचनारा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00039	आक्या उमाहेडा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00040	नगरी	-	सोयाबीन	-	-	-	
	भानपुरा								
		वृत्त भानपुरा							
		00002	प्रेमपुरिया	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00004	नावली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
		00005	बडोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00006	कोटडी टंक	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00007	सुजानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00008	कैलाशपुर	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00009	हमीरगढ	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00010	भानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00011	लोदखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00012	सांदलपुर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
		00013	कोहला	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00014	अरनिया चरण	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00015	रायपुरिया	-	सोयाबीन	-	-	-	

		00016	बाबुल्दा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00017	कुकडेश्वरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	अन्नालिया		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00019	अरनिया भाऊ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	सुरजना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	ढाबला मनोहर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	दुधाखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	टुगनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	मिट्टखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	परोनिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	कुतलखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	सातलेखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	हरनावदा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00029	खजुरना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	रतनपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	पांगा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	बोरदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	गोविन्दखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	भेसोदा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00035	केसोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	चौकी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	धुआखेडी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00038	औसारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	लेदीकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	औसरना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	नीमथुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	गोरधनपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	संधारा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00044	कालाकोट		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	सानडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	ढाबला माधोसिंह		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	केथुली		-	सोयाबीन	-	-	-
	मन्दसौर								
		वृत्त 2 धुधडका							
		00043	माल्याखेरखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	सुरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	लोध		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	पलवई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	गुजरबडिया		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00048	डिगावमाली		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00049	चिपलाना		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00050	रिण्डा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	लदुसा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	बाग्या		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	बाबरेचा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	लसुडावन		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00055	धुधडका		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00056	गुलियाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	धमनार		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00058	बडवन		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00059	भाटरेवास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	अफजलपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	पालडी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00062	ईशाकपुर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00063	नेतावली		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00064	रठाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	चिरमोलिया		-	सोयाबीन	-	मक्का	-

		00066	बिलात्री	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00067	गुदियाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	झिरकन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	निपानिया अफजलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	हतुनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	पटलावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	लामगरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	कटक्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	भोलिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00075	रातीखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	जोगीखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00077	झावल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00078	सेमलियाकाजी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	कुचडोद	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00080	सिहौर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	लाऊखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
	वृत्त-1 मंदसौर							
		00001	नौगावा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	रेवास देवडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	भरडावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	कोचवी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	जमालपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	गल्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	गुजरदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	रलायता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	धारियाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	सिंदपन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	गुराडिया देदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	मुल्तानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	दाऊदखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	मात्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	अचेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	बादाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	भालोट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	सेजपुरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	अमलावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	आधारी उर्फ निरधारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	रिछाबच्चा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	राजाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	अघोरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	खिलचीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	कस्बा मन्दसौर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	लालघाटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	साबाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	जग्गाखेडी मन्दसौर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	बोहराखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	मोहम्मदपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	सेतखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	अरनिया निजामुद्दीन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	चांगली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	पानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	सेमली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	ढिकोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	उदपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	कोलवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	लिलदा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00040	पाडलिया मारु	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	पिपलिया कराडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	जग्गाखेडी नाहरगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
	मल्हारगढ							
	वृत्त- 2 बुढा							
		00036	थडोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	बोतलगज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	बाबुखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	बैलारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	देवरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	मुदेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	डोंडियामीणा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	बादपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	लसुडिया राठेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	तुरकिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	दोरवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	पीरगुराडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	किंतुखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	गोपालपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	अडमालिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	आंनूखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	हिगोरिया छोट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	खडपालिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	चिल्लोद पिपलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	टकरावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	गरावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	तालाब पिपलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	ढाबला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	काचरिया कदमाला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	रणायरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	नापाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	पिपलिया जोधा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	बिल्लोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	रतन पिपलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	मगराना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	आक्या बीका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	सरवानिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	दोबडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	अरन्या जटिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	संजीत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	गरनई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	हाथी बोलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	बरखेडा डांगी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	टिडवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	हिगोरिया बडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	पिपलिया रायसिह	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	खाल्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	खुटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	कामलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	सिदपन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	बुढा	-	सोयाबीन	-	-	-
	वृत्त-1							
	मल्हारगढ							
		00001	मनासाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	बरखेडादेव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	चंगेरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	मोल्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	पहेडा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00006	पिपलिया विशन्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	बोरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	झाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	सोम्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	हरसोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	नारायणगढ	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	बरुजना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	लिम्बावास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	रीछा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	चिताखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	मुंदेडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00017	सुठोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	मन्हारगढ न.प.	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	काचरिया नो	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बरखेडा पँथ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	नेनोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	सोनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	कनघट्टी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00024	सेमली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	उमरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	खखराई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	बालागुडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	बरखेडा जयसिंह	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	गोगरपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	बही	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	सोकडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	पिपलियापथ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	गुडभेली बडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	लुनाहेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	काचरिया चन्द्रावत	-	सोयाबीन	-	-	-
	शामगढ							
	वृत्त-1-शामगढ							
		00001	मोलाखेडी खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	परासली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	हतुनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बरोखेडी रेडका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बरडिया इस्तमुरार रुचा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	तोलाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	किलगारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	भट्टनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	चन्दवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	आगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	पंडेरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	बघुनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	भुन्डिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	बरखेडा नायक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	पिछला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	असावती	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	बंजारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	गरडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	बापच्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	कुरावन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	टकरावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	बरडिया पुना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	मेलखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	कुण्डलाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-

		00026	नारिया बजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	आकली शिवदास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	सगोरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	जमुनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	बरखेडा उदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	शामगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	धामनिया दिवान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	मकडावन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	ढाबला गुजर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	हनुमंतिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	नलखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	खजूरीपथ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	बरखेडा राठोर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	आकली दिवान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	विशन्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	सुरजना जना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	फरासली दिवान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	सेमली शंकर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	सालरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	सीतामऊ							
		वृत्त 1						
		कयामपुर						
		00001	नाहरगढ	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00002	खजूरी चन्द्रावत	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	झलारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बेटीखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	कचनारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	खजूरी मांडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	शक्करखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	सुठी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	बडोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बरडिया बरेखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	नाटाराम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	कयामपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	खंडेरिया काचर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	रणाचरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	रामगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	गाडरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	मोतीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	पायाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	बाजखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	कोटडा माता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	कोटडा बहादुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	बोलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	विशन्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	खजूरी गोड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	अरनिया गोड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	खेताखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	बोरखेडी जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	काचरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	सेदरा करनाली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	धाकड पिपलिया	-	सोयाबीन	-	-	-

		वृत्त 2 सीतामऊ	00031	एरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	चिकला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	सूर्यखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	मोरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-

			00035	सेमलिया रानी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	गलियारा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	खेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	सीतामऊ	-	सोयाबीन	-	-	-
			00039	लदुना	-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	साखतली	-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	सुरखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00042	रावटी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	मुवाला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00044	लावरी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	मुंडला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00046	पतलासी कला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00047	सगौर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	नकेडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00049	झागरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00050	सरगसेदरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00051	लसुडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00052	खजुरीनाग	-	सोयाबीन	-	-	-
			00053	भारतपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00054	भगौर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00055	मानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00056	मेरियाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00057	साताखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00058	सेदरामाता	-	सोयाबीन	-	-	-
			00059	राजनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00060	दलाबदा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00061	ढंढेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00062	दीपाखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00063	धनुरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00064	माऊखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00065	गोपालपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00066	तितरोद	-	सोयाबीन	-	-	-
			00067	महुवा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00068	बैलारा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00069	कराडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00070	ढिकनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00071	खेजडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00072	महवी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00073	लारनी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00074	रहीमगढ	-	सोयाबीन	-	-	-

स्वासरा	वृत्त स्वासरा								
		00001	बसई	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00002	अजयपुर	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00003	ढाबला महेश	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00004	प्रतापपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00005	बडियागुजर	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00006	धलपट	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00007	काटिया	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00008	गोवर्धनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00009	गुराडिया विजय	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00010	धानडाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00011	कानाहेडा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00012	जगदी	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00013	नाथुखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00014	ढोढर	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00015	ढाबला भगवान	-	सोयाबीन	-	-	-	-

		00016	भैसीला	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00017	किशोरपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00018	धानखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00019	देवरिया विजय	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00020	स्वासरा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00021	ढोकडा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00022	गुराडिया प्रताप	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00023	जमुनिया	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00024	सेमली काकड	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00025	ढाबला देवल	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00026	गोलाना	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00027	रुनीजा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	-
		00028	आम्बा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00029	घसोई	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00030	तरनोद	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00031	चापाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00032	देवपुरा बामनी	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00033	बोरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00034	सेमली काकड	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		00035	अंगारी	-	सोयाबीन	-	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018							
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की		सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
जिला	तहसील				धान सिंचित	धान असिंचित					
रतलाम	आलोट	आलोट									
			00001	बरखेडाकला	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	-
			00002	कराडिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	-
			00003	बामनखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00004	देवगढ	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00005	हिम्मतखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00006	मोरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00007	रजला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00008	मजनपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00009	कानडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00010	थूरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00011	वडियाराठोर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00012	शैशाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00013	खजूरीदेवडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00014	पिपलिया पीथा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00015	पिपलियासिसोदिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00016	पिपलिया मार	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00017	मल्हारगढ	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00018	मूज	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00019	आलोट	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00020	माउ खेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00021	गुलवालोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00022	दुधिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00023	वगुनिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00024	भूतिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00025	कछालिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00026	शेरपुरखुरद	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00027	द्विगडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00028	अरवलिया सोलकी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00029	रीछा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00030	कथारिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00031	जहानावाद	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00032	खामरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00033	धरोला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00034	खजूरी सोलकी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00035	बोरखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00036	भोजाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00037	कलस्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00038	गोयल	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00039	गुराडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00040	जोयन	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00041	पाटन	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00042	निपानिया राजगुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00043	डावडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00044	तालोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00045	रावतखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00046	भीम	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	जावरा	जावरा									
			00035	मीडली	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00036	हाट पीपलीया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-

		00037	अरजला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	वटवडीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	नीवोदीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	लोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	गूजर वाउया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	खजूरीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	वउया गोयल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	पीर हीगोरीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	सीदूरकीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	खेजनखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	उमाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	वउवदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	तसूडिया जगली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	गउगउया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	हीगोरीया दादू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	बहादूर जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	नयानगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	अक्यावेली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	जावरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	बोरदा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00057	लुहारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	भूतेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	लालाखेउ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	रोजा खेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	उपलाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	नीमन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	सादा खेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	पाता खेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	सरसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	केरवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	रेवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	डोउयाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	ललीयाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	वउवदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		ढोढर						
		00001	पीपलीया जोधा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	ढोढर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	मोयाखेउ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	हनुमतीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	मातरउगज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	धतरावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	पीपलीया सीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	शककर खेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	मरमया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	असावती	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	माडवी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	गोदी शकर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	धर्मसी गोदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	नेतावली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	रोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	रिगनोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	कलालीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	परवलीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	रीछा चादा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	मडलाराम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	भेसाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	भीमाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	रोजाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	झालवा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00026	वनवाउ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	वीनोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	खेउ खेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	मीनाखेउ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	आलमपुर ठीकरीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	कामलीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	वडवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	गोठउ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	उनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	मोरीया	-	सोयाबीन	-	-	-
	ताल							
	ताल							
		00001	केलूखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	सुरजना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	पीपलखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	वरखेडा खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	असावता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	कोडठी ताल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	माघीपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	ऐरवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	मल्या ताल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	अक्या कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	जमुनीया शंकर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	रणयरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	सेमलीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	नेगरन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	कीशनगढ ताल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	धम गुराडीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	करवाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	भेसाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	लसुडीया खेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	मनुनीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	वीसलखुडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	मुडला कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	मरमीया खेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	कीटखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	डेलवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	नीपानीया लीला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	तुनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	वर्सी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	गुरूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	सागाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	खारवा खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	पथ पीपलोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	चापलाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	खेता खेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	पीपलीया तुखार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	खारवाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	दोलतगज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	कोठडी खारवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	मडावल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	कसारी चोहान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	भेसोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	मीनावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	कोलूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	लसुडीया सुरजमल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	ताजखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	ताल	-	सोयाबीन	-	-	-
	पिपलोदा							

		कालखेडा								
			00001	मावता	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00002	रानीगाव	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00003	नवेली	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00004	बछोडिया	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00005	धतुरीया	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00006	रीयावन	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00007	भाकरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00008	कसेर	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00009	चिकलाना(कालखेडा)	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00010	कालखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00011	भाटखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00012	रणायरा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00013	रीछादेवडा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00014	पीगराला	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00015	जडवासा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00016	माननखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00017	वरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00018	चीकलाना	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00019	मामटखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00020	आकयादेह	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00021	तालीदाना	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		पिपलोदा								
			00022	पचेवा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00023	जेठाना	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00024	नोलखा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00025	माउखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00026	कावलखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00027	धमेडी	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00028	सुखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00029	नीपानीया	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00030	पीपलोदा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00031	कमलाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00032	गूउरखेड	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00033	उम्मेदपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00034	आम्बा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00035	शेरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00036	मचून	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00037	हतनारा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00038	कुशलगढ	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00039	नादलेटा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00040	वउयलामाता	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00041	राकोदा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00042	बोरखेड	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00043	अयाना	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00044	उपरवाड	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00045	सूजापुर	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00046	हरीयाखेड	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00047	वारा खेड	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00048	सोहनगढ	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00049	वरगढ	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00050	आकतवासा	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00051	कचनखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00052	हसनपालीया	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00053	वउयला चोरासी	-	सोयाबीन	-	-	-	-
		बाजना								
		बाजना								
			00001	झोलीचन्द्रगढ	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
			00002	रायपाडा	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-

		00003	इरनीया		-	-	-	मक्का	-
		00004	कैलकच्छ		-	-	-	मक्का	-
		00005	मानपुरा(बाजना)		-	-	-	मक्का	-
		00006	चन्दला		-	-	-	मक्का	-
		00007	वीनटी		-	-	-	मक्का	-
		00008	चिकनी		-	-	-	मक्का	-
		00009	राजापुरा		-	-	-	मक्का	-
		00010	छावनीझोडिया		-	-	-	मक्का	-
		00011	रतनगढ पीठ		-	-	-	मक्का	-
		00012	खेरदा		-	-	-	मक्का	-
		00013	पिपलीपाडा		-	-	-	मक्का	-
		00014	हेवडा दमा कला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00015	भडानकला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00016	झरन्या उकाला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00017	करवल खोरा		-	-	-	मक्का	-
		00018	गढी कटारा कला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00019	कुंदनपुर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00020	सैंगेसरा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00021	भूतपाडा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00022	कुडल		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	गढीगमना		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00024	भोजपुरा		-	-	-	मक्का	-
		00025	ठीकरीया		-	-	-	मक्का	-
		00026	बाजना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	इमलीपाडा कला		-	-	-	मक्का	-
		00028	छावनी भामर		-	-	-	मक्का	-
		00029	अम्वापाडा कला		-	-	-	मक्का	-
		00030	भूरी घाटी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00031	जम्बूखादन		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00032	देवली		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00033	घोडाखेडा		-	-	-	मक्का	-
	रतलाम								
		नामली							
		00001	बोदिना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	खोखरा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	टीवेल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	धमनोद		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	पचेउ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	भरोडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	नीगांवाकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	पल्दूना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	काडरवासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बडोदा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	मेवासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	नामली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	सेमलीया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	भदवासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	सीखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	गुणावद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	रघुनाथगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	वरवोदना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	नेगडदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	धमोततर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	मोरदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	बाँगरुद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	धोसवास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	बाजेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	उसरगार		-	सोयाबीन	-	-	-
		बिलपाँक							

		00059	सेवरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	बम्बोरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	कमेड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	लपटिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	सीनोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	ढीकवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	कोठडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	चोराना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	नौगावा जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	धराड.	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	बीलपाक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	वदनारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	दतोडीया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00074	मऊ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	अम्बोदीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	जमूनीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	नलकुई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	सरवड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	प्रीतमनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	झरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	रतागढ ख	-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	सीमलावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	सुजलाना	-	सोयाबीन	-	-	-
	मुंदडी							
		00084	कनेरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	मोरवनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	कलमोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00087	लालगुवाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	पलास	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00089	मुंदडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00090	आलनीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00091	कुआ झागर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00092	तीतरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00093	मागरोल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00094	भाटीवडीदीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00095	सरवनी जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00096	उमरन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00097	पिपलखुंटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00098	पीपलोदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00099	उमरथाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00100	धोलका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00101	बिरमावल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	रतलाम							
	गा							
		00030	अमलेटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	पलसोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	जामथुन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	डेलनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	ईसरथुनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	गोपालपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00036	रामपुरया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	पलसोडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00038	बजली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	जुलवानिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	सेजावता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	धटला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	वीवडोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	सागोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	हरथली	-	सोयाबीन	-	-	-

		00045	राजपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	सालाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	ईटावाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	सनावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	नगरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	जडवासा खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	जडवासा कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	सीमलावदा खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	मलवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	हतनारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	नायन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	वडोदीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	ईटावाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	शिवपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
	रतलाम शहर							
		00027	वीरीयाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	रतलाम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	करमदि	-	सोयाबीन	-	-	-
राव								
	रावटी							
		00001	कुडीया पाडा	-	-	-	मक्का	-
		00002	खडी बजरंगगढ	-	-	-	मक्का	-
		00003	बजरंगगढ	-	-	-	मक्का	-
		00004	मनासा	-	-	-	मक्का	-
		00005	नाहरपुरा	-	-	-	मक्का	-
		00006	सेलज देवदा	-	-	-	मक्का	-
		00007	रूपापाडा	-	-	-	मक्का	-
		00008	अमरपुराकला	-	-	-	मक्का	-
		00009	वरखेडा	-	-	-	मक्का	-
		00010	नायन	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	सादेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	घटालीया	-	-	-	मक्का	-
		00013	मरगुल	-	-	-	मक्का	-
		00014	मोलावा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00015	देथला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00016	भग्गा सेलोद का टापरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00017	ऊमर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00018	बीड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00019	रावटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	आतलीपाडा	-	-	-	मक्का	-
		00021	बिलडी	-	-	-	मक्का	-
		00022	मलवासी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	हरथल	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00024	देवला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00025	सीगत	-	-	-	मक्का	-
		00026	जावड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00027	गूजरपाडा	-	-	-	मक्का	-
		00028	कोटडा	-	-	-	मक्का	-
		00029	तम्बोलीया	-	-	-	मक्का	-
		00030	गडावदिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00031	डावडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00032	रानीसिंग	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
सैलाना								
	शिवगढ							
		00046	वायडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00047	वासीन्द्रा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00034	बरडा	-	सोयाबीन	-	-	-

20/2

		00035	डूगरपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00036	केलदा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00037	दोलतपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00038	सुडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00039	भोमट	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00040	ठीकरिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00041	कांगसी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00042	बावडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00043	शिवगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	कुआ झागर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00045	तालाबबोडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00048	खेडी कला	-	सोयाबीन	-	-	-
			सैलाना					
		00001	अमरगढ	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00002	उन्डेल	-	-	-	मक्का	-
		00003	महापुरा	-	-	-	मक्का	-
		00004	सालवानीया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	सालरापाडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00006	कुण्डा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00007	गराड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00008	बोरदा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	गुडभेली	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00010	सेरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	वेडदा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	चन्देरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	पाटडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00014	अम्वापाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	वल्लीखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00016	लुणी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00017	इन्द्रावल खर्द	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00018	कोलपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00020	पूनयाखेडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00021	बडी खर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	चावडाखेडी भिलान	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00024	करिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	कोटडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	सैलाना	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00027	भीलो की खेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	अडवानीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	सेमलखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	सकरावदा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00031	बोरखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00032	सांसर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00033	नयापाडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

93

मौसम	खरीफ	वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम						
शिवपुरी										
	कोलारस									
		कोलारस								
			00001	अटामानपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	पाडोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	रूहानी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	राजगढ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	चिलावद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	पहाडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	देहरोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	सुआटोर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	कोटानाका	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	दीगोदी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	कुमरौआ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	कार्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	गोहरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	खैरोना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	खरई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00016	तैदुआ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00017	डेहरवारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00018	अटारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00019	मकरारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00020	सरजापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00021	मोहरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	चंदेनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	नेतवास	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	मडीखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	कुम्हरीआ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00026	खोंकर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	सेसई सडक	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	पडौरा सडक	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	बैंहटा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	टीला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	गोराटीला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	बेरसिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	कोलारस	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	सिंगराई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	राई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		लुकवासा								
			00036	बेडारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	गुडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	चंदोरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00039	भडोता	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	चकरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	साखनौर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	रिजौदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	मोहराई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00044	पनवारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	देहरदा सडक	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00046	डोडयाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-

		00047	भाटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	किलावनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	लेवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	उन्हाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	गणेशखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	बसाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	राछी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	अटरूनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	लुकवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	आनंदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	पचावला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	ईमलावदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	पचावली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	डंगोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	कुल्हाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	टुडियावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	दीघोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	सेसईखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	गड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	झाडेल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	किशनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	धुआं	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	विजरावन	-	सोयाबीन	-	-	-
	खनियाधाना							
	खनियाधाना							
		00001	गुरैया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	मसूरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	बूधोन राजापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बघारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	तेरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	घिलौंदरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	पहाडाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	महआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	मुहासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	पचराई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	खडीचरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	पिपरौदा उबारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	मायापुरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	खनियाधाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	बामौरखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
	महारी							
		00044	कफार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	बनखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	नदावन चंदेरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	बुकरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	हर्षपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	झालोनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	हरथोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	पातीचक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	पिपरौदाआलम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	निवोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	कालीपहाडी चंदेरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	बामोरकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	हसर्रा	-	सोयाबीन	-	-	-
	नरवर							
	करही							

(72)

		00029	फूलपुर नरवर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00030	बिची	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	हतेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	सीहोर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	बहगवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00034	धमधौली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	छीतरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00036	कूबरी ऊर् गवालिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	सोन्हर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	गनियार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00039	इन्दरगढ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00040	करही	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00041	रामनगर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00042	झण्डा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	बेरखेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	रमगढा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00045	नैनागिर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	खडीचा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	फतेहपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00048	सिलरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00049	दिहायला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00050	राजपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00051	दोनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00052	भैंसा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00053	सुनारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00054	रोनीजा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00055	अन्दौरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		नरवर							
		00001	पीपलखाडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00002	छ्यावदा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00003	निजामपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00004	केरुआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00005	पनानेर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	दिगवास	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00007	देवरीखुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	मगरोनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	किशनपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	बीलोनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	नरवर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	सिकंदरपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	बरखाडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	जैतपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	जुझाई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00022	नरौआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00023	कालीपहाडी मेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	साबोली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	ठाटी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	सिमरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	कांकर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	पिछोर								
		01-खोड							
		00005	मउकुडच्छा		-	-	-	-	सोयाबीन
		00006	वीरा		-	-	-	-	सोयाबीन
		00007	कुम्हरोआ		-	-	-	-	सोयाबीन
		00008	देवरीखुर्द		-	-	-	-	सोयाबीन
		00009	माचमौर		-	-	-	-	सोयाबीन

		00015	गडोईया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	शेरगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	गुरूकुदवाया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	केमखेड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	तिजारपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	रूपपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	पडौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	भडौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	खडोय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	ककरोआ ऊर् ठनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		02-मनपुरा						
		00042	महोबाडामरौन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	करारखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	बिरोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	बदरवास	-	सोयाबीन	-	-	-
	पोहरी							
	छर्च							
		00026	मारौराहीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	देवरीखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	पिपरधार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	उपसिल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	मडखेडा	-	-	-	-	बाजरा
		00031	डोभा	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00032	महदेवा	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00033	बिलौआ	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00034	हितौनिया	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00035	छर्च	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00036	महलोनी	-	-	-	-	बाजरा
		00037	भैसरावन	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00038	डिगडौली	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00039	खरवाया	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00040	चांदपुर	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00042	दौरानी	-	-	-	-	बाजरा
		00043	परासरी	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00044	अगंरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	वेशी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	घटाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	बमरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	बैधारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	सालोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	गल्थनी	-	सोयाबीन	-	-	-
	पोहरी							
		00001	ऐसवाया	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00002	डांगवर्च	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	मालवर्च	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	मकलीजरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	दुल्हारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	झलवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	नरैयाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	भदरौनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	झिरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	अतवेई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	सेवाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	बीलबराकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	भटनावर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	नानौरा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00015	नौन्हेटाखुर्द			सोयाबीन	-	-	-
		00016	जाखनीद			सोयाबीन	-	-	-
		00019	गवालीपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00020	बैंहटा			सोयाबीन	-	-	-
		00021	चकराना			सोयाबीन	-	-	-
		00022	बछौरा			सोयाबीन	-	-	-
		00023	कनाखेडी			सोयाबीन	-	-	-
		00024	परिच्छाअहीर			सोयाबीन	-	-	-
		00025	आकुसी			सोयाबीन	-	-	-
	बदरवास								
		बदरवास							
		00001	मुंडेरी			सोयाबीन	-	-	-
		00002	गुढालडांग			सोयाबीन	-	-	-
		00003	सोलोन			सोयाबीन	-	-	-
		00004	अगरा			सोयाबीन	-	-	-
		00005	झूलना			सोयाबीन	-	-	-
		00006	वायगा			सोयाबीन	-	-	-
		00007	बरखेडाखुर्द			सोयाबीन	-	-	-
		00008	अटलपुर			सोयाबीन	-	-	-
		00009	खजूरी			सोयाबीन	-	-	-
		00010	मंगरौल			सोयाबीन	-	-	-
		00011	सुमैला			सोयाबीन	-	-	-
		00012	बडोखरा			सोयाबीन	-	-	-
		00013	चंदोरिया			सोयाबीन	-	-	-
		00014	धामनदूक			सोयाबीन	-	-	-
		00015	बामौर			सोयाबीन	-	-	-
		00016	बारई			सोयाबीन	-	-	-
		00017	बदरवास			सोयाबीन	-	-	-
		00018	तिलातिली			सोयाबीन	-	-	-
		00019	बूढाडांगर			सोयाबीन	-	-	-
		00020	चिटोरा			सोयाबीन	-	-	-
		00021	सडबूड			सोयाबीन	-	-	-
		00022	रिजौदी			सोयाबीन	-	-	-
		00023	बिजरीनी			सोयाबीन	-	-	-
		00024	मैघोनाडांग			सोयाबीन	-	-	-
		00025	मडवासा			सोयाबीन	-	-	-
		00026	तरावली			सोयाबीन	-	-	-
		00027	पीरौठ			सोयाबीन	-	-	-
		00028	बरोदिया			सोयाबीन	-	-	-
		00029	खतौरा			सोयाबीन	-	-	-
		00030	बारौद			सोयाबीन	-	-	-
		00031	अलावदी			सोयाबीन	-	-	-
		00032	सेजवासा			सोयाबीन	-	-	-
		00033	बामौरखुर्द			सोयाबीन	-	-	-
		रन्नीद							
		00034	विनेका			सोयाबीन	-	-	-
		00035	सजाई			सोयाबीन	-	-	-
		00036	खरैह			सोयाबीन	-	-	-
		00037	विजयपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00038	बीजरी			सोयाबीन	-	-	-
		00039	लालपुर			सोयाबीन	-	-	-
		00040	देहरदागणेश			सोयाबीन	-	-	-
		00041	टामकी			सोयाबीन	-	-	-
		00042	अकोदा			सोयाबीन	-	-	-
		00043	ढकरोरा			सोयाबीन	-	-	-
		00044	टीलाकला			सोयाबीन	-	-	-
		00045	सुनाज			सोयाबीन	-	-	-

		00046	बामोरकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	अकाझिरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	इचोनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	धन्धेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	डगपीपरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	रन्नौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	सेसई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	बेदमउ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	मथना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	अम्हारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	माडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	ठाठी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	सिंघराई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	रिन्हाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	इन्दार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	गिन्दीरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	झपडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	रामगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	पगारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	कुटवारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	श्रीपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	कुसुअन	-	सोयाबीन	-	-	-
	बैराड							
	गोवर्धन							
		00001	भिलौडी	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00002	ठेवला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	ककरौआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	खेरारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बूडदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	गुरीच्छा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	हरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	रायपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	खटका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	खरईजालिम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	बाघेदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	फुलीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00013	धतूरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	रेंचवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	भैराना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	खरईडाबर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	गोवर्धन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	धौरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	गाजीगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
	बैराड							
		00020	कैमई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	जौराई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	पैयन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	देवपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	जरियाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	बैराड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	टाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	भदेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	टोरियाखलसा	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00029	पचीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	कालामढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	ककरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	गोंदरी	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा

(74)

		00033	गोबरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	सांभरवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	देवरीकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	रसैरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	बरीद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	बीलबरामाता		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	मारौराखलसा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	खैदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	बेरजा		-	सोयाबीन	-	-	-
	शिवपुरी								
		02-शिवपुरी							
		00038	नोहरीकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	सिहनिवास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	दरौनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	ठरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	भावखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	सिरसोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	टोंका		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	लोहादेवी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	करमाजकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	ख्यावदाकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	कोडावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	ईटमा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	तानपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	लालगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	टोगरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	सुहारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	कसियारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	बिलोकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	सतेरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	पिपरसमां		-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	रायश्री		-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	रातौर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	मनियर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	बांसखेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	मोहनगड	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	बडागांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	कोटा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	हालोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	सुरवाया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	करई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	गंगोरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	धुवानी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	बूडीबरोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	गडीबरोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	खुटेला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	डबिया		-	सोयाबीन	-	-	-

	सभासपुरा								
		00001	महेशपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	गोपालपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	इमलिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	खांदी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	गुरावल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	करसेना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	भानगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	कलोथरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	बम्हारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	करई केरउ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	धौलागढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	इंदरगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	टँहटा हिम्मतगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	सेवडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	पाडरखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	सूड		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	करई अहमदपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	बांरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	कांकर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	सकलपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	ठेह		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	डोंगर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	सतनवाडाखुद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	सतनबाडाकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	खजूरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	कुंअरपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	सिकरावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	कपराना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	जामखो		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	बिलूपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	खौरघार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	रातीकिरार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	मुंडेरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	गूगरीपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	चिटोरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	चंदनपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

101

मौसम	खरीफ		वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
सीहोर	आष्टा									
	आष्टा									
			00001	मैना		-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	खामखेडा बैजनाथ		-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	बैजनाथ		-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	टिटोरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	सेवदा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	कुमडावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	लौरासखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	पटारियागोयल		-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	शंभूखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	बगडावदा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	हकीमाबाद		-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	डूका		-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	खडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	चन्नोटा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	गोपालपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00016	डाबरी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00017	मूदीखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00018	टांडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00019	दुपाडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00020	लौरासकला		-	सोयाबीन	-	-	-
			00021	हीरापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	हसैनपुरखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00047	आनंदीपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	किलेरामा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00049	आष्टा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00050	चांचरसी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00051	पगारिया चौर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00052	रूपेटा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00053	भेरुपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00054	बरखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00055	लसूडलियापार		-	सोयाबीन	-	-	-
			00057	अरोलिया आष्टा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00058	जगमालपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00059	नवरंगपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00060	बमूलिया भाटी		-	सोयाबीन	-	-	-
	कोठरी									
			00023	लसूडलिया सूखा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	चुपाडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	निपानिया कला		-	सोयाबीन	-	-	-
			00026	बोरखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	कचनारिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	मानाखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	भीलखेडीसडक		-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	लसूडलिया खास		-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	कोठरी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	मोतूखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	बमूलिया खींची		-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	बेदाखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	संधोखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	गवाखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-

		00037	सामरदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	जताखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	बफापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	मुगली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	मुबरकपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	रसूलपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	कानराखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	गुराडिया रूपचंद्र	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	भंवरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	बागैर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	दोनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	बापचा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	अरनिया दाउद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	अरनिया राम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	भटोनी	-	सोयाबीन	-	-	-
	खाचरोद							
		00056	पाडलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	हरीजखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	भूपोड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	लसूडलिया विजय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	रिछाडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	मेमदाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	खजूरिया कासम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	देवनखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	नीलबड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	पगारिया चोर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	जसमत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	उदयपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	कन्नीजमिर्जी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	खाचरोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	बापचा बरामद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	नौगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	रामपुराकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	सिंगारचौरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	झिकडी मेवाती	-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	जम्सूपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	रोलागाव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	बडघाटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00087	खामखेडा जना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	बडोदिया गाडरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00089	झरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00090	गुराडिया वाज्याफत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00091	किल्लोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00092	छापर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00093	अरनिया जोहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
	इछावर							
	इछावर							
		00036	भाउखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	कांकरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	कुडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	पालखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	इछावर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	नयापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	दीवडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	रामदासी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	नीलबड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	आमला नोआवाद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	खेरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	निपानियां	-	सोयाबीन	-	-	-

		00048	जामली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	बोरदीकलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	लसूडलिया कांगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	ढाबलामाता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	बाबडिया नोआबाद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	कालापील	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	सेमलीजदीद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	मुआडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	ईटखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	बलौडिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00059	आबीदाबाद	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00060	लावाखाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	लोहापठार	-	-	-	मक्का	-
		00062	सारस	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	बाबडिया घोर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	सोहनखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	कनेरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	गाजीखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	ब्रिजिनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	गुराडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00069	फांगिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	अलीपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	नादान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	पांगराखाती	-	सोयाबीन	-	-	-
	मोलगा							
		00001	अमलाहा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	भाडाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	मोहनपुर लेंडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	नरसिंहखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बरखेडा कुर्मी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	बिशनखुडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	नागली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	दुर्गपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	गोलूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	धामन्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	छापरी ताल्लुक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	लाउखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	ढाबलाराय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	खजूरिया घेंघी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	रामनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	तौरनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	मोलगा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	हालियाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	सतपीपलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	गउखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	चेनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	लालियाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	कुंडीखाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	दोलतपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	गादिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	बाबडिया गोसाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	आर्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	दुदलई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	जमोनिया फतेहपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	मूडला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	उमरखाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	झालकी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	सिराडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	आमला रामजीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-

			00035	जमोनिया हट्टेसिंह	-		सोयाबीन	-	-	-
	जावर									
		जावर								
			00001	कजलास	-		सोयाबीन	-	-	-
			00002	कुंडियानाथू	-		सोयाबीन	-	-	-
			00003	जीवापुर महोडिया	-		सोयाबीन	-	-	-
			00004	हरनावदा	-		सोयाबीन	-	-	-
			00005	मुंडला महोबा	-		सोयाबीन	-	-	-
			00006	मुरावर	-		सोयाबीन	-	-	-
			00007	करमनखेडी	-		सोयाबीन	-	-	-
			00008	कुरावर	-		सोयाबीन	-	-	-
			00009	कल्याणपुरा	-		सोयाबीन	-	-	-
			00010	भवरीकलां	-		सोयाबीन	-	-	-
			00011	अरनियागांजी	-		सोयाबीन	-	-	-
			00012	हरनियागांव	-		सोयाबीन	-	-	-
			00013	फुडरा	-		सोयाबीन	-	-	-
			00014	डोडी	-		सोयाबीन	-	-	-
			00015	टिगरिया	-		सोयाबीन	-	-	-
			00016	अरोलिया जावर	-		सोयाबीन	-	-	-
			00017	बमूलिया रायमल	-		सोयाबीन	-	-	-
			00018	जावर	-		सोयाबीन	-	-	-
			00019	खजूरिया जावर	-		सोयाबीन	-	-	-
			00020	दरखेडा	-		सोयाबीन	-	-	-
			00021	शेखूखेडा	-		सोयाबीन	-	-	-
			00022	मेहतवाडा	-		सोयाबीन	-	-	-
			00023	सेमलवारी	-		सोयाबीन	-	-	-
			00024	भानाखेडी	-		सोयाबीन	-	-	-
			00025	बीलपान	-		सोयाबीन	-	-	-
			00026	गुराडिया वर्मा	-		सोयाबीन	-	-	-
			00027	बरछापुरा	-		सोयाबीन	-	-	-
			00028	गवाला	-		सोयाबीन	-	-	-
			00029	गवाली	-		सोयाबीन	-	-	-
			00030	पिपलिया सलारसी	-		सोयाबीन	-	-	-
			00031	अतरालिया	-		सोयाबीन	-	-	-
			00032	झिलेला	-		सोयाबीन	-	-	-
			00033	बांदरिया हाट	-		सोयाबीन	-	-	-
			00034	आमला मज्जू	-		सोयाबीन	-	-	-
			00035	गाजना	-		सोयाबीन	-	-	-
			00036	अमरपुरा	-		सोयाबीन	-	-	-
			00037	लाखिया	-		सोयाबीन	-	-	-
			00038	कुरलीकलां	-		सोयाबीन	-	-	-
			00039	धुराडाकलां	-		सोयाबीन	-	-	-
			00040	सिददीकगंज	-		सोयाबीन	-	-	-
	नसरुल्लागंज									
		इटारसी								
			00001	पिपलानी	-		सोयाबीन	-	-	-
			00002	घुटवानी	-		सोयाबीन	-	-	-
			00003	इटावाखुर्द	-		सोयाबीन	-	-	-
			00004	मुहाई	-		सोयाबीन	-	-	-
			00005	बाई	-		सोयाबीन	-	-	-
			00006	बघगांव	-		सोयाबीन	-	-	-
			00007	कुमनताल	-		सोयाबीन	-	-	-
			00008	सुकरवास	-		सोयाबीन	-	-	-
			00009	मंजीखेडी	-		सोयाबीन	-	-	-
			00010	हमीदगंज	-		सोयाबीन	-	-	-
			00011	बसंतपुर पांगरी	-		सोयाबीन	-	-	-
			00012	कुरी नयापुरा	-		सोयाबीन	-	-	-
			00013	रुफीकगंज	-		सोयाबीन	-	-	-
			00014	छापरी	-		सोयाबीन	-	-	-

		00015	श्यामपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	मगरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	वासुदेव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	इटावाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	गोपालपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	सीगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	इटारसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	छीपानेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	चौरसाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	बगवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	बडुनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	धौलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	सातदेव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	सीलकंठ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	बालागांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	हालियाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	गिल्लौर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	सेमलपानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	गोरखपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	निमोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	पलाशीकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		नसरुलागंज						
		00036	आंबाकदीम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	सिंहपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	झाली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	डाबरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	भिलाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	लाडकुई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	टीकामोड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	लाचौर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	हाथीघाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	पाचौर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	रिठवार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	भादाकुई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	गूलरपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	छिदगावमोःजी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	खरसानियां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	निम्नागांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	जोगला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	खाटयाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	नंदगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	चांदाग्रहण	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	नसरुलागंज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	बोरखेडा कलां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	रिछाडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	सोठिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	राला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	चींच	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	नीलकंठ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	छिदगांवकाछी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	आम्बाकदीम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	डिमावर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	खडगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	तिलाडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	पाडतिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	आगरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	सतराना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	खनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	तजपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-

	बुधनी		00073	चिचलाहाकला		-		सोयाबीन	-	-
		बुधनी								
			00001	खांडाबड	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00002	देवगांव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00003	होलीपुरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00004	महकला	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00005	पीलीकरार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00006	बुधनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00007	जोशीपुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00008	जहानपुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00009	खटपुरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00010	पहाडखेडी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00011	शाहगंज	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00012	बनेटा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00013	अकोला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00014	डुंगरिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00015	जवाहरखेडा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00016	सनखेडी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00017	खोहा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00018	सत्रामउ	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00019	हथनीरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00021	सरदार नगर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00022	जैत	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00023	नारायणपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00024	बोरना	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00025	मछवाई	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00026	खबादा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00027	गादर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00028	छिरियाकुर्मी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00029	चीकली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00030	आमोन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00031	सागपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00032	सियागहन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00033	बकतरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00034	जोनतला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00035	खेरीसिलगेना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00036	नांदनेर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00037	कुसुमखेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00038	नौनभेट	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00020	डोबी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
	रेहटी									
		रेहटी								
			00008	गौडीगुराडिया		-		सोयाबीन	-	-
			00010	रेहटी		-		सोयाबीन	-	-
			00018	मांजरकुई		-		सोयाबीन	-	-
			00019	बरखेडा		-		सोयाबीन	-	-
			00020	मटठागांव		-		सोयाबीन	-	-
			00021	सांवलखेडा		-		सोयाबीन	-	-
			00022	नयागांव		-		सोयाबीन	-	-
			00029	कोटरा पीपतिया		-		सोयाबीन	-	-
			00030	पाटतलाई		-		सोयाबीन	-	-
			00031	अमीरगंज		-		सोयाबीन	-	-
			00032	चकल्दी		-		सोयाबीन	-	-
			00033	हारमउ		-		सोयाबीन	-	-
			00035	नरेला		-		सोयाबीन	-	-
			00036	ढाबा		-		सोयाबीन	-	-
			00037	चिचलाहाखुर्द		-		सोयाबीन	-	-
			00038	सोयत		-		सोयाबीन	-	-

		00039	कलनवाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	बोरघाटी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	मलाजपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	चन्द्रपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	श्यामगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	बाबरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	महागांव जदीद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	दिगवाड		-	सोयाबीन	-	-	-
	सलकनपुर								
		00001	सेमरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	रतनपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	बर्धा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बोरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	खेरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	बोरधी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	भडकुल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	सगोनियां		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	सलकनपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	इटारसी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	मुराह	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	पथौडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	आवलीघाट	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00016	मोगरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	मरदानपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	जहाजपुरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	नीनोर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	माथनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	पानगुराडिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	बाया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	उंचाखेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	श्यामपुर								
	अहमदपुर								
		00001	बांसिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	गवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	सातनवाडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	लोधीपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	मगरदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	चांदबड		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	मानपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	छतरपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	आछारोही		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	अरनिया सुलतानपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	पडियाला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	छतरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	पीलूखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	चरनाल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	सांकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	बनखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	अहमदपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	गढीबगराज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	सीलखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	मुंगावली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	बरखेडा हसन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	सुआखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	अजमतनगर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	नाईहेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	दौलतपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	हथियाखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	हिनाती		-	सोयाबीन	-	-	-

		00028	रसूलपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	हसनपुर तिनीनिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	खाईखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	बरखेडादेवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	सौंठी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बमूलिया दोराहा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	बरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	बैरागढ खुमान		-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	शाहजहांपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
	श्यामपुर								
		00035	घाटपलासी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	पानविहार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	कादराबाद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	मुखतार नगर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	सरखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	कादमपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	गुलखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	खजूरियाखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	खंडवा देवली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	कचनारिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	खजूरिया कलां		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	मगरखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	करंजखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	सिराडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	निवारिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	श्यामपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	बिछिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	महूआखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	सिकंदरगंज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	बरखेडा खरेट		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	बरखेडी दोराहा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	कतपोन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	सोनकच्छ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	जमोनिया खुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	झरखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	पाटन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	दोराहा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	बराडीकलां		-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	छापरी दोराहा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	सतोरनियां		-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	सेमरादांगी		-	सोयाबीन	-	-	-
	सीहोर								
	बिनकिसगंज								
		00022	नोनीखेडी गोसाईं		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	खामलिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	डोडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	दुपाडियाभील		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	रायपुर नयाखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	थुनाकलां		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	पचामा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	लसूडिया परिहार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	पडली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	कुलासकलां		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	कुलासखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बरखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	बिजलोन		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	तकीपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	पिपलिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	जहांगीरपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-

(104)

		00038	अलहादाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	धामनखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	शिकारपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	बमूलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	बडनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	टिटोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	हीरापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	ढाबला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	खेडली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	बिलकिसगंज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	भोजनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	उलझावन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	इमलीखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	पाटनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	लीलाखाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	खारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	आवलीखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
			वर्कलोड					
		00060	सतपीपलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	आमाझिर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	मोगराराम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	हसनाबाद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	धबोटी	-	सोयाबीन	-	-	-
			सीहोर					
		00001	देवली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	कपुरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	धनखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	निपालिया कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	शेखपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	मूहाली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	सेमरादांगी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	मुंयावली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	रायपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	राजूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	रोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	जानपुर बावडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	मूडलाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	कराडियाभील	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	छापरीकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	बिजौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	कोडियाछीतू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	बिजौरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	कस्बा सीहोर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	छावनी सीहोर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	जमोनिया तालाब	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	गुडभेला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	र फीकगंज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	सेवनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	महोडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	मोगराफूल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	नापलाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	चितोडिया लाखा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	आमला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	संथामपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	मूडलाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	सेमलीकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	लसूडियाखास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	खारपा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	लसूडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	पचपीपलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	मुस्करा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	हेदरगंज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	मूलानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	सौडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	लालाखाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	जताखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची (III)

मौसम	खरीफ		वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की								
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा			
अशोकनगर	shadoura	जलालपुर	00019	पदमघटा	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00020	कुदोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00021	सडूमरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00022	काछीबामोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00023	राजेबामोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00024	अखाईकृष्ण	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00025	वामोरीताल	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00026	अमोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00027	मढीकानूनगो	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00028	सतउखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00029	झीला	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00030	ककराई	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00031	जलालपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00032	मोहरी ज्ञान	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00033	मथनेर	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00034	ककरूआराय	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00035	भैंसरवास	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			अशोकनगर	शादोरा		00001	बरखेडानई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00002	पीपरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00003	भिसरसीनई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00004	उमरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00005	किरूदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00006	वायगा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00007	बगुल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00008	म्यापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00009	रेझा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00010	चिरोली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00011	गता शादोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00012	पीलीघटा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00013	पहाडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00014	करख्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00015	शादोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00016	बमूरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00017	सेमरी शाहवाद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00018	सेजी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			अशोकनगर	अशोकनगर		00001	दियाधरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00002	तरावली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00003	सिजावट	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00004	धौरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00005	रातीखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00006	पडरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00007	आवरीमाफी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00008	रावसरखालसा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00009	सहोदरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00010	बमूरियाफूट	-	-	सोयाबीन	-	-	-
00011	बाबूपुर	-				-	सोयाबीन	-	-	-			

		00012	गरौली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	डंगोरफूट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	मडखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	लखेरी बसारती	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	नारायणपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	रिजौदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	करियाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	कजराई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	खिरियागुहांस	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	सिरसीपछार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	कोलुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	कबीरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	बरबरखेडी जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	नगेश्री	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	मोहरीराय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	अशोकनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	भोराकाछी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	भोराखाती	-	सोयाबीन	-	-	-
	कचनार							
		00030	बारमहू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	सोहत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	खेजराहाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	काकाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	मेनाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	पिपरियाराय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	करैयाराय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	सेमराहाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	खेजराखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	सोनेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	मसीदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	अखाईटप्पपा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	धमना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	कचनार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	झागर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	बरखेडा छज्जू	-	सोयाबीन	-	-	-
	राजपुर							
		00046	जतौली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	आमखेडा तूमेन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	डोंगरापछार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	सिंकदरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	देवखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	हिगोनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	बेरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	भादोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	सावन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	बरखेडा लाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	सेमरा पहाड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	तूमेन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	शवाजपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	करैयाबदुधु	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	बरोदिया तूमेन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	खजूरियाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	कुडईतूमेन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	महुआलमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	राजपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	आमखेडा सूखा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	छीपोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	रेपरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	बामोरा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00069	सेमरा बामोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
	ईशागढ							
	ईसागढ							
		00017	गहोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	जंघार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	पारसोल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	भेलवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	मानकचौक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	तिगरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	कोहरवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	भरौली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	भगवानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	खिरियादेवत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	बमनाबर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	आनदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	आकलोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	ईसागढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	मामौन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	दयालपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	शंकरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	श्यामाटोरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	ढाकोनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	कुलवार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	लहिदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	नरसूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
	कदवाया							
		00001	ईदौर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	सर्करा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	कदवाया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बछतर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	भैसरवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	अनघोरादीवान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	बल्देवगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	मनहेटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	केशोपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	सिरनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	सिलपटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	छपरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	महुअन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	गनेशखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	फुटेरा उर्फ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	इंगामोचार	-	सोयाबीन	-	-	-
	सारसखेडी							
		00039	खमखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	सारसखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	पचलाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	पिपरोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	पिपरेसरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	परासरी धुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	धुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	कन्हेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	बमूरिया नई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	महाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	रुहाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	राजतला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	फुटेरा पछार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	हिनोतिया फूट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	छीरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	सेमरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-

		00055	पाकरोड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	जनौदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	वायवैनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	पाठखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	हैदर	-	सोयाबीन	-	-	-
	चन्देरी							
	चन्देरी							
		00001	महोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	लिधोरा मुंजप्ता	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	मोहनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	गोधन	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	खेरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00006	गौराकला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00007	चुरारी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00008	हिरावल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	बडेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	सकवारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	नानकपुर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00016	विक्रमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	खागल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	सोतेर	-	सोयाबीन	-	-	-
	थुवोन							
		00027	सिगपुरचालदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	रामनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	बाकलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	देवलखो	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	पिपरोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	सुरेल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	थुवोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	नयाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	नावनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	जारसल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	डुंगासरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	मीठाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
	नईसराय							
	नईसराय							
		00001	घुरवारकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	रावसरजागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	अखाईघाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	पोरुखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	कालाबाग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	भैंसा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	डुंगासरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	देपालखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	रुसल्ला बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	नईसराय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	छापर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	मेहमूदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	जानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	कांकडा	-	सोयाबीन	-	-	-
	महिदपुर							
		00015	बीसोर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	सीहोर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	अमरोद सिंगरोना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	सीगाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	कडेसरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	अजलेश्वर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	घटावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	पिपरोल	-	सोयाबीन	-	-	-

		00023	मढीमहिदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	महिदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	कुरायला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	सांदोह	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	देरखा	-	सोयाबीन	-	-	-
	पिपरई							
		तारई						
		00001	खिराका टांक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	डोगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	भरियाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	अमरौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	ककरैठा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	तारई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	ललोई टांका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	मोहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	भटोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	खेराइ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	रहटवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	मूडराकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	सीगोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	आकेत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	गरेठी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	जमाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	बामोरी चन्देरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	नानोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	अररोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		पिपरई						
		00020	केनवारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	खोरीबरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	बरखेडा पिपरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	बांसखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	कर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	पिपरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	केशोपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	खोकसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	सिघाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	सिलावन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	खुजराई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	मूडराबहादुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	मलावनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बमूरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	छैवताई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	बरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	सागर अथाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	रुसल्ला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	ढोडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	तमाशा	-	सोयाबीन	-	-	-
	मूंगावली							
		अथाईखेडा						
		00001	अथाईखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	ढकन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	मूदराखाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बीलाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बीलाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	केशलोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	पीपलखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	जसेया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	टीटोर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बेलई	-	सोयाबीन	-	-	-

		00009	टीटोर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बेलई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	दमदमा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	झागर बमूरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	अमौदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	मथाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	जारोली छुबयाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	गुपलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	बरखेडा जमाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	इकोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	बहादुरपुर							
		00019	घाट बमूरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	मदउखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	आँडेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	गौलारोपा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	सुमेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	बरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	बाबरोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	गोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	लपतोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	भ्याना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	नरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	मल्हारगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	पिपरिया मल्हारगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	खजुरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	बामोरीखुटिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	बिल्हेरू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	गदली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	कुकावली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	जारोली बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	बखेडा काछी	-	सोयाबीन	-	-	-
	मुंगवली							
		00040	टीला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	नादनखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	बीडसरकार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	तारई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	बामोरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	पारकना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	साजन मउकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	ढिमचोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	अचलगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	सहराई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	बम्भन खिरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	गुनहेरू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	बरवाह	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	मुडरा मुंगवली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	सोनाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	आमनचार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	पठारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	चिराली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	बामोरी टाका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	डोंगरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	सोनाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	मदउखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	किरोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	झागर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	ओपाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	मीरकाबाद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	हरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	कस्वारेज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	हुडेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	दिचरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	बाढोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	सावलहेडा	-	सोयाबीन	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार							
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	00023	नोनिया बरेली	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-		
			00024	धोलश्री	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-		
			00025	किशनपुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-		
			00026	बिजनहाई		-	-	तुअर	-	-		
			00027	उडमउ		-	-	तुअर	-	-		
			00028	छींद		-	-	तुअर	-	-		
			00029	सिलारीकला	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-		
			00030	उदयपुरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-		
			00031	रहली	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-		
			00032	किरगोखुर्द		-	-	तुअर	-	-		
			00033	बौरास	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00034	चौरास		-	-	तुअर	-	-		
			00035	अण्डिया		-	-	तुअर	-	-		
			00036	केलकच्छ	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	-	-		
			00037	सतहरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-		
			00038	बीसावाडी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-		
				कोडाजमुनिया								
						00055	रिछावर		-	-	तुअर	-
						00056	रम्पुरा		-	-	तुअर	-
						00057	नयाखेड़ा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
						00058	टिमरावन	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
						00059	खिरेटी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
						00060	अलीवाड़ा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
						00061	गोरखपुर		-	-	तुअर	-
						00062	डुंगरिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
						00063	बरखन्दा		-	-	तुअर	-
						00064	हाथीडोल		-	-	तुअर	-
						00065	पडरिया खुर्द	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
						00066	चिखली	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
						00067	कोडा जमुनिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
						00068	करहेयाकला		-	-	तुअर	-
						00069	पडरईकला		-	-	तुअर	-
				छातैर								
						00001	कुचवाड़ा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
						00002	खुरसूरू	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
						00003	पिपलिया केवट	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
						00004	शहपुरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
						00005	नूरनगर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
						00006	तिखावन	धानसिंचित	-	-	-	-
						00007	बनखेड़ी	धानसिंचित	-	-	सोयाबीन	तुअर
						00008	आवरिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
						00009	छातैर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-
			00010	लामट	धानसिंचित	-	-	-	-			
			00011	पिपलिया पुआरिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-			
			00012	भाडोज	धानसिंचित	-	-	तुअर	-			
			00013	कैतोधान	धानसिंचित	-	-	तुअर	-			
			00014	मोहडकला		-	-	तुअर	-			
			00015	सिमरिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-			
			00016	गायठान		-	-	तुअर	-			
			00017	चंदली		-	-	तुअर	-			

		00018	धाना बहेडिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00019	निबाडी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00021	कल्हेडीकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00022	पचामा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
	देवरी								
		00039	किरगीकला	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00040	रमखिरिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00041	बीझा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00042	कानीवाड़ा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00043	बारहकला	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00044	अनघेरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00045	पतई	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00046	केकडा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00047	साईखेडा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00048	पांजरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00049	पिपलिया कला	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00050	बूधनवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00051	देवरी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00052	बम्होरी देवरी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00054	दिधावन	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
गैरतगंज									
	गढी								
		00016	गढी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00017	हिनोतिया खास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	बासादेही		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	पेनगंवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	सहजपुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00021	पटी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	जुझारपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	रसीदपुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00024	अंधियारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	लवाझिर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00026	हिनोतिया खालसा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	रमपुराकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	खमरियागंज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	घाना		-	सोयाबीन	-	-	-
	गैरतगंज								
		00030	गैरतगंज		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00031	छीरखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	बम्होरी गोदड		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	गुंदरई		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00034	अगरियाकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	जैतपुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00036	सिंहपुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00037	हरदोट		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	आलमपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	पापडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	पडरियागंज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	भानपुरगंज		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00042	समनापुर कला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00043	सर्रा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	खुमारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	देवरीगंज		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00046	सईदपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	टेहरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	रजपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	टेकापार खोडी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00050	सोभापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	गोरखा		-	सोयाबीन	-	-	-

		00035	शाहबादतिलेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	करहोदा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00044	राजमउ	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	चिकलोदकलां	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	धामधूसर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00058	बडवाई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00059	नादोरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	बरबटपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00061	कामतोन कासिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	मक्का	-
	मंडीदीप								
		00001	पोलाहा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00002	नांदोर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00003	बरखेडा सेतू	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00004	कुमडी बिठोरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00005	दाहोद	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	पडोनिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	पिपलिया गज्जू	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	मंडीदीप	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	सराकिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	इटायाकलां	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	सिमरई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	पिपलिया लौ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	सतलापूर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00034	कीरत नगर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	बरैली								
	खरगोन								
		00001	पांजरा काशीराम	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00002	भगदेही	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00003	जामगढ़	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00004	अहमदपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00005	खैरीमुगली	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00006	रजबाडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00007	नयागांव खुर्द	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00008	खैरवाड़ा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00009	खरगोन	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00010	ऊंटियाखुर्द	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00011	हरडोब	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00012	सिनवाह	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00017	पिपरिया करनसिंह	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00040	छुछार	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00041	भोंड़िया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00042	बेगनिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00043	टोंगा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	बरैली								
		00013	उदयगिरी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00014	करमवाडा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00015	खपरिया खुर्द	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00016	मैहरागांव कलां	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00018	गगनवाड़ा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00019	चारगांव	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00020	कामतोन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	बरैली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00022	धोखेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00023	कोटपार गणेश	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		00024	आकोला	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00025	समनापुर जागीर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00026	बांस पिपलिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	गोल	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00028	भारकच्छ खुर्द	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00029	दिमाडा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00030	सेमरीघाट	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00031	मोतलसिर		-	-	तुअर	-	-
		00032	बगवाड़ा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00036	भिलाडिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00037	गुरारिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
	महेश्वर								
		00033	सतरावन	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00034	डूमर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00035	घाट पिपरिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00038	नयागांव कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00039	किनगी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	छवारा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00045	उटियाकला	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00046	केलकच्छ	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00047	महेश्वर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00048	मगरधा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00049	पांजराविजयसिंह	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00050	सोजनी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00051	खण्डराज	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00052	बम्होरीपाण्डा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00053	मांगरोल		-	-	तुअर	-	-
		00054	बागपिपलिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00055	अलीगंज	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00056	बरहाकला	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
बाडी									
	बाडी								
		00001	रतनपुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00002	चैनपुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00003	दहलवाडा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00004	घोट	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00005	वाडी कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	पारतलाई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00007	गेहलपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	रानीपुरा खुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	बाबई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	अमरावदकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	समनापुर काछी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	कन्हवार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	मोकलवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	घुरेला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	पलकाश्री	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00016	सेमरीखोजरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00017	गाजीखेडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	मालझिर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00019	मांगरोल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00020	भैंसाया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	भारकच्छ								
		00021	दिगवाड़	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00022	नानपोन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00023	शिवतला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	कुटनासिर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00025	सुल्तान नगर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	सर्गोनिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		00027	गुगलवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	जमुनिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	मनकापुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00030	धांधला	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00031	सनखेडा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00032	देहरी कलां	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00033	खपरियां कलां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00034	किशनपुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00035	भारकच्छ कलां	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00036	गडरवास	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00037	गोरामछवाड़	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
	बेगमगंज								
	तुलसीपार								
		00021	महगवा टप्पा		-		सोयाबीन	-	-
		00022	सनेहरझंर धवाज		-		सोयाबीन	-	-
		00023	करहोला		-		सोयाबीन	-	-
		00024	भरखेड़ा टप्पा		-		सोयाबीन	-	-
		00025	महआखेड़ा कलां		-		सोयाबीन	-	-
		00026	खिरेटी		-		सोयाबीन	-	-
		00027	पिपलिया पाठक		-		सोयाबीन	-	-
		00028	तुलसीपार		-		सोयाबीन	-	-
		00029	पाडाझिर		-		सोयाबीन	-	-
		00030	बीरपुर		-		सोयाबीन	-	-
		00031	बडगवा मुंजप्ता		-		सोयाबीन	-	-
		00032	लखनपुर		-		सोयाबीन	-	-
		00033	बाँसादेही		-		सोयाबीन	-	-
		00034	मरखण्डी		-		सोयाबीन	-	-
		00035	भैसा		-		सोयाबीन	-	-
		00036	कुन्डा		-		सोयाबीन	-	-
		00037	घोघरी		-		सोयाबीन	-	-
		00038	मजगवा सानी		-		सोयाबीन	तुअर	-
		00039	सुनेटी		-		सोयाबीन	-	-
		00040	पड़रिया राजाधार		-		सोयाबीन	तुअर	-
	बेगमगंज								
		00001	खजुरिया बर.गढी		-		सोयाबीन	-	-
		00002	भुरेरू		-		सोयाबीन	-	-
		00003	कल्याणपुर		-		सोयाबीन	-	-
		00004	खैरी ता.चोका		-		सोयाबीन	-	-
		00005	कीरतपुर		-		सोयाबीन	-	-
		00006	सुनेहरा		-		सोयाबीन	-	-
		00007	हपसिली		-		सोयाबीन	-	-
		00008	सुमेर		-		सोयाबीन	-	-
		00009	कोकलपुर		-		सोयाबीन	-	-
		00010	माला		-		सोयाबीन	-	-
		00011	चन्दौरिया		-		सोयाबीन	-	-
		00012	कोहनिया		-		सोयाबीन	-	-
		00013	बिनायकपुर		-		सोयाबीन	-	-
		00014	गेहरास		-		सोयाबीन	-	-
		00015	पलोहा		-		सोयाबीन	-	-
		00016	चांदबढ़		-		सोयाबीन	-	-
		00017	उमरखोह		-		सोयाबीन	-	-
		00018	फतेहपुर		-		सोयाबीन	-	-
		00019	कस्बा बेगमगंज		-		सोयाबीन	-	-
		00020	परसोरा		-		सोयाबीन	-	-
	सुल्तानगंज								
		00043	बिछुआजागीर		-		सोयाबीन	-	-
		00044	रतनहारी		-		सोयाबीन	-	-
		00045	धानाकला		-		सोयाबीन	-	-

		00046	सुल्तानगंज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	उदका		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	मरखेड़ा गुलाब		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	बम्हरी टीटोर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	पिपलिया बिचोली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	खमरिया ता नई गढिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	मोईया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	जमुनिया ता.कोटी खो		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	टेकापार खोडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	सुनबाहा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	कोठीखो		-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	पन्दरभटा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	नई गढिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	गुलबाड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	उमरहारी बरासिलवानी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	शाहपुर सुल्तानपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
	रायसेन								
	दीवानगंज								
		00001	नीनोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	जमुनिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00003	सरार		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00004	नरखेड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	खोहा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	मुडियाखेड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	सेमरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	अम्वाडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	गौदगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	बडोदा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	बागोद	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	शाहपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	तिजालपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	भेढकी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	रातातलाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	कचनारीया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	सुनारी		-	-	-	-	-
		00019	चिरहोली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	सरचंपा		-	सोयाबीन	-	-	-
	रायसेन								
		00041	व्यावरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	पेमत	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	बिरहोली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	वनगंवा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	अल्ली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	धनियाखेड़ी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	रायसेन	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	महू पथरई	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	सलेरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	परवरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	मेहगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	उमरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	सनखेड़ी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	कानपोहरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	मुरेलकला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	डाबर इमलिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	भादनेर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	पठारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-

		00059	मानपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	मूछेल	धानसिंचित	-		-	-	-
	सांची								
		00021	बासखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	गुलगाव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	उचेर	धानसिंचित	-		-	-	-
		00024	मडवाई	धानसिंचित	-		-	-	-
		00025	सांची	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	ढकना चपना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	चिरहोली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	पग्नेश्वर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	बारता		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	कोटरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	माखनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	सदालतपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	सेवासनी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	सिलपुरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	सेहतगंज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	पीपल खिरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	खरवई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	रंगपुरा केसरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	नांद	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	सांचेत								
		00061	मउजागीर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	नयापुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00063	हिनीतिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	चिलवाहा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	बनखेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	बड़ोदा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	अण्डोल-बहेड़	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	हकीमखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	पीपलखेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	ग्यारसाबाद	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	सांचेत	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	नसरुददीनखेड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	कांठ	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	मुगांलिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	नकतरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	खण्डेरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	नरवर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	गुदावल	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	सिरसोदा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	सिलवानी								
	जैथारी								
		00058	फुलमार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00059	कोलूआ	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00060	हतोडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00061	धनगवां	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00062	चंदनपिपलिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00063	वेरूआ	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00064	कुंवरखेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00065	बीकलपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00066	जैथारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00067	छौंद	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00068	चंदपुरा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	प्रतापगढ़								
		00046	खमकुआ		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00047	तिनघरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00048	खमरिया खुर्द	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-

१६

		00049	सेमराखास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	देवरी हतनापुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00051	प्रतापगढ़		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00052	गुदरई	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00053	चैनपुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00054	पोनार		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00055	शालावरू		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00056	अमगवां	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00057	नारायणपुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	बम्होरी								
		00001	रम्पुराकला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00002	कीरतपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00003	पडरियाखुर्द	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00004	तुलसीपार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00005	सिंगपुरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00006	चिकली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00007	समनापुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00008	गुप्तीहमीरपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00009	पहेरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00010	कस्वा बम्होरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00011	गुदरई	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00012	दिल्हारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00013	कुण्डाली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00014	करतौली वन ग्राम	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00015	सियलवाडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00016	पडरियाकला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00017	सिंहपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00018	सिमरिया खुर्द	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00019	सिवनी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00020	मनकवाडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	सिलवानी								
		00021	बम्होरी वर्धा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00022	वर्धा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00023	उमरझिर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00024	चुन्हेटिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00025	सिमरिया कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00026	साईखेडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00027	बटेर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00028	खेरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00029	खमरिया मानपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00030	उचेरा जमुनिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00031	जुनियां	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00032	सिलवानी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00033	नीगरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00034	डुगरिया कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00035	बेगवाकला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00036	जैतपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00037	मुआर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	वीचोली		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00039	देवरीजागीर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00040	पठापौडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-

		00041	देवरी (मनकापुर)		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00042	हिनौतिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00043	खमेरा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00044	सियरमऊ		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00045	डाबरी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	सुल्तानपुर								
		ईटखेडी							
		00013	किनगी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00014	गोरखपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	उड़दमऊ	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00016	ईटखेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	उमरई बेहरा		-	-	तुअर	-	-
		00018	खमरिया सोहनपुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00019	बेरखेडी कलां	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00020	सांतरा		-	सोयाबीन	-	-	-
	सुल्तानपुर								
		00002	चंपानेर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00003	खमरिया निमावर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00004	खपरिया खापा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	सेमरीखुर्द	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00007	बगासपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	घाटपिपरिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00009	ताडी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00010	राजलवाडी कलां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	सुल्तानपुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00012	सेमरीकलां	धानसिंचित	-	-	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुह्यतय का	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
हरदा	खिरकिया									
		खिरकिया								
			00001	काल्याखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	बडनगर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	खमलाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	बारंगा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	बम्हनगाव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	धनवाडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	नगांवामाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	सारंगपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	पाहनपाट	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	चौकडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	कुडावा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	मांदला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	बारंगी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	सक्तापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	पीपल्याभारत	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00016	मुहालकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00017	छीपाबड	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00018	खिरकिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		चारुवा								
			00019	पोखरनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00020	कालधड	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00021	पडवा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	चारुवाखास	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	सारसूद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	जटपुरामाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	टेमलावाडी रेयत	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00026	डेउगांवमाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	कानपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	प्रतापपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	जुनापानी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	मक्तापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	सांगवामाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	छुरीखाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	मोरगढी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	जयमलपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		टिमरनी								
		करताना								
			00001	लछेरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	छीपानेर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	कही	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	गोदागांवखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	गाडाभोडकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	नयागांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	गोदडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	करताना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	तजपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	शेवरास	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	गुल्तास	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	रूदलाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-

		00013	सन्धासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	गोंदागांवकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	नौसर	-	सोयाबीन	-	-	-
	टिमरनी							
		00016	बाजनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	बिच्छापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	बघवाड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	रायबीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	पोखरनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	अहलवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	निमाचाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	खिडकी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	बरकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	चारखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	टिमरनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	सामरधा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	छिदगांवमेल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	पीपल्याकला	-	सोयाबीन	-	-	-
	रहटगांव							
	रहटगांव							
		00017	खमगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	नरानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	कासरनीकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	रहटगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	फुलडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	नजरपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	छीरपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	झाडबीडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	कपासी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	राजाबराही	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	टेमरूबहार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	केली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	रवाग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	कचनार	-	सोयाबीन	-	-	-
	सोडलपुर							
		00001	मनियाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	सोहागपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	सोडलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	सोताडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	धौलपुरकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	उन्द्राकच्छ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	भादगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	टेमागांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	डोलरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	नादवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	गाडामोडखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	सिरकम्बा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	आलमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	दूधकच्छकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	पानतलाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	छिदगांवतमोली	-	सोयाबीन	-	-	-
	सिराली							
	दीपगांवकला							
		00019	बेडियाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	डोलगांवकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	पहटकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	बावडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	दीपगांवकला	-	सोयाबीन	-	-	-

		00023	दीपगांवकर्ला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	कडोत्ताराधौ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	सोमगांवकर्ला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	नहालीकर्ला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	भगवानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	जूनापानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	हसनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	सांवलखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	रामटेकरैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	ककडापानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	चिकलपाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	जामुनियाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	सांवरी	-	सोयाबीन	-	-	-
	सिराली							
		00001	मरदानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	कालकुण्ड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	रहटाकर्ला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	मुहाडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	सिराली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	रामपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	धनकार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	महेन्द्रगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	आमाखाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	जामूखी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	पटालदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	मकडाईकिला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	गोमगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	पीपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	खुदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	जिनवानिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	आमासेल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	लोलागरा	-	सोयाबीन	-	-	-
	हडिया							
	अबगांवकर्ला							
		00018	रेलवां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	धनगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	छिडगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	नीमगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	कायागांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	बेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	देवतलाव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	भादूगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	बांगरूल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	खेडीनीमा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	कोलीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	अबागांवकर्ला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	रिजगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	आदमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	सुरजना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	नांदरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	गोगिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	हडिया							
		00001	सात्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	नयापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	उर्वी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	करनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	सोनतलाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	पांचातलाई	-	सोयाबीन	-	-	-

		00008	कचबेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	बिछोलामाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	पचोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	रातातलाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	सीगोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	मांगरूल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	बेस्वां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	हीरापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	खेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	अजनासरैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	हण्डिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	हरदा							
			मगरधा					
		00020	कमताडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	रोलगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	बीड़	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	केलनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	खामापडवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	डगांवाशंकर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	गहाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	धुरगाढा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	कनारदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	बूंदडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	बालागांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	नकवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	सिरकम्बा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	मोहनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	मगरधा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	झाडपा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	जिजगांवखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	रैसलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
	हरदा							
		00001	भुन्नास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	सोनखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	डगांवानीमा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	अबगांवखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	पिड़गांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	हरदाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	झाडपा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	सामरधा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	बैरागढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	उंडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	भाटपरैटिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	रन्हाईकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	कुकरावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	रहटाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	सुखरास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	कडोलाउबारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	पलासनेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	मसनगांव	-	सोयाबीन	-	-	-